

भारत का राजपत्र
The Gazette of India
 अधिकार से प्रकाशित
 PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 8] नई दिल्ली, शनिवार, फरवरी 24, 2001 (फाल्गुन 5, 1922)
 No. 8] NEW DELHI, SATURDAY, FEBRUARY 24, 2001 (PHALGUNA 5, 1922)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
 (Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग I—खण्ड 4

[PART I—SECTION 4]

रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों व छुट्टियों आदि से
 सम्बन्धित अधिसूचनाएं

[Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Officers issued
 by the Ministry of Defence]

रक्षा मंत्रालय

थल सेना विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 24 फरवरी 2001

सं० 89, दिनांक 25 जनवरी, 2001—राष्ट्रपति महर्ष
 यथा संशोधित थल सेना अनुदेश 74/76 के अधीन नियुक्ति करने हैं —

नियमित सेवा

स्थायी कमीशन

सर्ज. रज. लेफ्टी को एड पर (परख पर)

(क) सेवा सिगल, एम वी वी एन (एम आर-07427 एम)
 (75719 एन), ए एम सी—11 मार्च 2000।

सशस्त्र वायु सेना, एम वी वी एन (एम आर-07412के)
 (75718के), ए एम सी—11 मार्च 2000।

दाल सकार, एम वी वी एन (एम आर-07397ए) (75717
 एन) ए एम सी—11 मार्च 2000।

एम को परी

विशेषज्ञ

उप-महानिदेशक (कार्गि)

सं० 90, दिनांक 25 जनवरी 2001—थल सेना अनुदेश
 15/79, तथा थल सेना अनुदेश सं० 5/96 द्वारा इसमें जारी
 गणधन के अधीन राष्ट्रपति महर्ष 5 वर्ष के लिए नियुक्ति करते हैं —

नियमित सेवा

सैनिक दल चिकित्सा कोर

(अल्पकालीन कमीशन)

लेफ्टिनेंट अथवा समकक्ष रैंक में (परख पर)

कुमारी गानी कपूर, बीडीएम (कुतुब) (डीएस-12011
 डाइट)—16-3-2000।

(सेवा और पदोन्नति के लिए ज्येष्ठता 16-9-99 से दी
 जाती है। इसमें अस्थायी नियुक्ति के लिए छः महीने
 एन में दी गई ज्येष्ठता भी शामिल है, जो उपादान के
 लिए नहीं गिनी जाएगी)।

123-9-2000 को भारत सरकार के राजपत्र में प्रकाशित
 रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना में उद्धृत एक इसका सम्बन्ध उपर्युक्त
 अधिसूचना में है, पर प्रकाशित नहीं है।

आर के. सेठी

विशेषज्ञ

उप डी वी डी एन

(धन मंत्र विभाग)

मं. 91, दिनांक 23 जनवरी 2001—राष्ट्रपति निम्न-
लिखित पदोन्नतियाँ करने हैं—

(नियमित सेवा)

इन्फैन्ट्री

गढ़वाल राइफल्स

सूबेदार गेजर के रैंक में

सूबेदार कन्हन सिंह (जंसी-164610एन)—01 जुलाई
2000 ।

सूबेदार विशुपाल सिंह रात्री (जंसी-218501एम)—01
जुलाई 2000 ।

सूबेदार मानिन्द्र सिंह (जं. सी. 173245 एन)—01 अगस्त
2000 ।

सूबेदार बिरेंद्र सिंह, सैना मेडल (जं. सी. 173224 एन)
01 अगस्त 2000 ।

सूबेदार सुरेंद्र सिंह कनवासी (जं. सी. 173887 एन)—01
अगस्त 2000 ।

सूबेदार क्याम सिंह (जं. सी. 166097 एन)—01 सितम्बर
2000 ।

सूबेदार मेजर (लिपिक) के रैंक में

सूबेदार (लिपिक) भोज सिंह रावत (जं. सी. 205213
एफ)—01 अक्टूबर 2000 ।

सूबेदार के रैंक में

नायक सूबेदार नारायण सिंह (जं. सी. 225854 पी)—01
सितम्बर 1999 ।

नायक सूबेदार मन्थ प्रकाश (जं. सी. 468247 एन)—01
सितम्बर 1999 ।

नायक सूबेदार दरबारा सिंह (जं. सी. 558422 वाई)—01
दिसम्बर 1999 ।

नायक सूबेदार देव राम (जं. सी. 528188 वाई)—01
मार्च 2000 ।

नायक सूबेदार मन्थान सिंह (जं. सी. 528276 पी)—01
मार्च 2000 ।

नायक सूबेदार जगदीप कुमार (जं. सी. 528403 वाई)
—01 मार्च 2000 ।

नायक सूबेदार दिगम्बर सिंह रात्री (जं. सी. 528406 एम)
—01 मार्च 2000 ।

नायक सूबेदार जेध सिंह (जं. सी. 488352 एन)—01
मार्च 2000 ।

नायक सूबेदार पान सिंह (जं. सी. 528156 पी)—01
मार्च 2000 ।

गढ़वाल (लिपिक) के रैंक में

नायक सूबेदार (लिपिक) मुहम्मद इरशाद खान (जं. सी.
528360 पी)—01 अप्रैल 2000 ।

नायक सूबेदार (लिपिक) पद्म सिंह (जं. सी. 528351
एन)—01 अप्रैल 2000 ।

3 जी आर

सूबेदार के रैंक में

नायक सूबेदार वीन प्रसाद गुप्ता (जंसी-623183 एन)—01
जनवरी 2000 ।

नायक सूबेदार टेक बहादुर थापा (जंसी-623205 वाई)—
01 जनवरी 2000 ।

नायक सूबेदार मन बहादुर थापा (जंसी-623175 एम)—01
जनवरी 2000 ।

नायक सूबेदार चन्द्र बहादुर रोका (जंसी-623177 वाई)—
01 जनवरी 2000 ।

नायक सूबेदार रतन बहादुर गुप्ता (जंसी-623209 पी)—
01 फरवरी 2000 ।

नायक सूबेदार आनन्द कुमार गुप्ता (जंसी-623206 एफ)
—01 फरवरी 2000 ।

नायक सूबेदार प्रदीप कुमार रात्री (जंसी-623207 के)—
01 मई 2000 ।

नायक सूबेदार दुर्गा राम गुप्ता (जंसी-623200 ए)—01
मई 2000 ।

नायक सूबेदार (लिपिक) राम ध्यान यादव (जंसी-623128
पी)—01 जुलाई 2000 ।

नायक सूबेदार (लिपिक) पूरा राई (जंसी-623130 एम)
—01 अगस्त 2000 ।

5 जी आर (एफ एफ)

सूबेदार के रैंक में

नायक सूबेदार उमर बहादुर थापा (जंसी-617197 पी)—01
जनवरी 2000 ।

नायक सूबेदार सुरज बहादुर गुप्ता (जंसी-617198 एन)
—01 जनवरी 2000 ।

नायब सूबेदार इन्द्र बहादुर राना (जंसी-617203 एम्स)—01
जनवरी 2000 ।

नायब सूबेदार राजेश कुमार भंडारी (जंसी-617204 ए)—01
जनवरी 2000 ।

नायब सूबेदार धर्मा सिंह गुरूग (जंसी-617214 के)—01
जनवरी 2000 ।

नायब सूबेदार जीत बहादुर खावास (जंसी-617215 एम्)—
01 फरवरी 2000 ।

नायब सूबेदार हाम बहादुर थापा (जंसी-617259 के)—
01 फरवरी 2000 ।

नायब सूबेदार उरने कुमार गुरूग (जंसी-617260 बाई)
—01 मार्च 2000 ।

नायब सूबेदार लुम बहादुर पून (जंसी-617202 पी)—20
जुलाई 2000 ।

नायब सूबेदार धन बहादुर थापा (जंसी-617261 एफ)—01
अगस्त 2000 ।

जाट रजिमेंट

सूबेदार के रैंक में

नायब सूबेदार गर्मानाम (जं. सी -488233 पी)—1
जनवरी 2000 ।

नायब सूबेदार रागनीनवाग विजीरनिगा (जं. सी. 488282
एम्स)—1 जनवरी 2000 ।

नायब सूबेदार मलड राम जाट (जं. सी.-488378 ए)—1
जनवरी 2000 ।

नायब सूबेदार गोपाल सिंह (जं. सी.-488444 एम्स)—1
जनवरी 2000 ।

नायब सूबेदार दूर्जन सिंह (जं. सी.-488327 एम्)—1
जनवरी 2000 ।

नायब सूबेदार वनदारी लाल (जं. सी.-488333 ए)—1
जनवरी 2000 ।

नायब सूबेदार राम सिंह (जं. सी.-488466 डब्ल्यू)—1
जनवरी 2000 ।

नायब सूबेदार उदयबीर सिंह (जं. सी.-488197 पी)—1
जनवरी 2000 ।

नायब सूबेदार राम गोपाल जाट (जं. सी.-488021 के)—1
जनवरी 2000 ।

नायब सूबेदार राम फल (जं. सी.-488304 एल)—1 जनवरी
2000 ।

नायब सूबेदार गौरधन राम (जं. सी.-488326 के)—1
जनवरी 2000 ।

नायब सूबेदार सुलतान सिंह भास्कर (जंसी-488335 एल)—
1 जनवरी 2000 ।

नायब सूबेदार जयमल सिंह चहल (जंसी-4882875 डब्ल्यू)—1
जनवरी 2000 ।

नायब सूबेदार दया राम (जंसी-488354 डब्ल्यू)—1
जनवरी 2000 ।

नायब सूबेदार बलवान सिंह (जंसी-488357 के)—1
जनवरी 2000 ।

नायब सूबेदार राज पाल (जंसी-488085 पी)—1 जनवरी
2000 ।

नायब सूबेदार अभीर सिंह स्यांरान (जंसी-488173 एल)—1
जनवरी 2000 ।

नायब सूबेदार बाबू सिंह (जंसी-488328 पी)—1 जनवरी
2000 ।

नायब सूबेदार विजय सिंह (जंसी-488348 एच)—1 जनवरी .
2000 ।

नायब सूबेदार जय प्रकाश सिंह (जंसी-488086 एम्स)—1
जनवरी 2000 ।

नायब सूबेदार ओम प्रकाश (जंसी-488102 के)—1 जनवरी
2000 ।

नायब सूबेदार रोहितारव जाट (जंसी-488216 पी)—1
जनवरी 2000 ।

नायब सूबेदार जान सिंह (जंसी-488217 एम्स)—1 जनवरी
2000 ।

नायब सूबेदार दिवान सिंह (जंसी-488349 एल)—1 जनवरी
2000 ।

नायब सूबेदार इन्दर सिंह (जंसी-488347 ए)—1 जनवरी
2000 ।

नायब सूबेदार बलबीर सिंह पहल (जंसी-488125 एल)—1
जनवरी 2000 ।

नायब सूबेदार छोटाराम पृथ्वी (जंसी-488128 बाई)—1
जनवरी 2000 ।

नायब सूबेदार मोहन लाल (जंसी-488129 एफ)—1 जनवरी
2000 ।

नायब सूबेदार धीर सिंह जाट (जंसी-488218 ए)—1 जनवरी
2000 ।

नायब सूबेदार दिलबाग सिंह (जंसी-488231के)—1 जनवरी 2000 ।

नायब सूबेदार धर्मवीर सिंह (जंसी-488260वाइं)—1 जनवरी 2000 ।

नायब सूबेदार रामकरण सिंह पहल (जंसी-488288वाइं)—1 जनवरी 2000 ।

नायब सूबेदार धर्म पाल (जंसी-488393 पी)—1 जनवरी 2000 ।

नायब सूबेदार गुरवयाल सिंह (जंसी-488262के)—1 जनवरी 2000 ।

सूबेदार (लिपिक) के रैंक में

नायब सूबेदार लिपिक रामकिशन मुहाण (जंसी-488247 पी)—1 अप्रैल 2000 ।

नायब सूबेदार लिपिक बकसीर सिंह गुलेरिया (जंसी-488245 के)—1 अप्रैल 2000 ।

नायब सूबेदार लिपिक विरेंद्र पाल सिंह (जंसी-488273 डब्ल्यू)—1 अप्रैल 2000 ।

नायब सूबेदार लिपिक राम क्यार (जंसी-488311एफ)—1 अप्रैल 2000 ।

नायब सूबेदार लिपिक नवीन कन्ठ विष्ट (जंसी-488312 के)—1 अप्रैल 2000 ।

नायब सूबेदार लिपिक भगवान सिंह (जंसी-488340 डब्ल्यू)—1 अप्रैल 2000 ।

नायब सूबेदार लिपिक राजेंद्र कुमार उपाध्याय (जंसी-488370एन)—1 अप्रैल 2000 ।

नायब सूबेदार लिपिक समर्पे सिंह गरीर (जंसी-488353 एन)—1 अप्रैल 2000 ।

नायब सूबेदार लिपिक राधेश्याम सलीजा (जंसी-488381ए)—1 अप्रैल 2000 ।

नायब सूबेदार लिपिक महिपाल सिंह (जंसी-488389 एम)—1 सितम्बर 2000 ।

नायब सूबेदार लिपिक मनबीर सिंह (जंसी-488391 के)—1 सितम्बर 2000 ।

नायब सूबेदार लिपिक पैमागम महन्ता (जंसी-188407 के)—1 नवम्बर 2000 ।

प्रिंसीपल

सूबेदार मंजर के रैंक में

सूबेदार हरी किशोर (जंसी-164027एल)—04 जनवरी 2000 ।

सूबेदार अमर्श्वर अली (जंसी-178495वाइं)—01 अप्रैल 2000 ।

सूबेदार विजामुखीन (जंसी-188627पी)—02 अप्रैल 2000 ।

सूबेदार सेवी दान (जंसी-122246एल)—01 जून 2000 ।

सूबेदार करन सिंह (जंसी-178213पी)—01 जून 2000 ।

सूबेदार पर्रन सिंह (जंसी-192905पी)—01 जन 2000 ।

सूबेदार अमर सिंह भीना (जंसी-219670ए)—01 जून 2000 ।

सूबेदार के रैंक में

नायब सूबेदार परमजीत सिंह, एम एम (जंसी-448021 पी)—01 सितम्बर 1999 ।

नायब सूबेदार अब्दुल हमीद (जंसी-448270ए)—10 सितम्बर 1999 ।

नायब सूबेदार लक्ष्मी चन्द (जंसी-448318एच)—01 सितम्बर 1999 ।

नायब सूबेदार अवतार सिंह (जंसी-448381एक्स)—01 सितम्बर 1999 ।

नायब सूबेदार राम निवास यादव (जंसी-448413पी)—01 सितम्बर 1999 ।

नायब सूबेदार उर्मि सिंह ठुन्हार (जंसी-448753 एक्स)—01 सितम्बर 1999 ।

नायब सूबेदार रूप राज सिंह (जंसी-448105पी)—01 अक्टूबर 1999 ।

नायब सूबेदार शमर्पे सिंह सांगवान (जंसी-448377पी)—01 अक्टूबर 1999 ।

नायब सूबेदार जोगेन्द्र पाल सिंह (जंसी-448406वाइं)—01 अक्टूबर 1999 ।

नायब सूबेदार रामपाल सिंह (जंसी-448468वाइं)—01 अक्टूबर 1999 ।

नायब सूबेदार बिजेन्द्र सिंह (जंसी-448516एल)—01 अक्टूबर 1999 ।

नायब सूबेदार क्याम मराणी (जंसी-448520डब्ल्यू)—01 अक्टूबर 1999 ।

सूबेदार के रैंक में

नायब सूबेदार कुलदीप सिंह (जं. सी.-448531 एफ) —01 अक्टूबर 1999 ।

नायब सूबेदार दलवीर सिंह (जं. सी.-448532 एफ) —01 अक्टूबर 1999 ।

नायब सूबेदार हीरा राम (जं. सी.-448574 एफ) —01 अक्टूबर 1999 ।

नायब सूबेदार आकार सिंह (जं. सी.-448583 एफ) —01 अक्टूबर 1999 ।

नायब सूबेदार कोता राम (जं. सी.-448599 एफ) —01 अक्टूबर 1999 ।

नायब सूबेदार इराब खान (जं. सी.-448434 एफ) —05 अक्टूबर 1999 ।

नायब सूबेदार जगदीश प्रसाद गुर्जर (जं. सी.-448448 एफ) —01 दिसम्बर 1999 ।

नायब सूबेदार महावीर सिंह (जं. सी.-448419 डब्ल्यू) —01 जनवरी 2000 ।

नायब सूबेदार रमेश चन्द वर्मा (जं. सी.-448539 पी) —01 मार्च 2000 ।

नायब सूबेदार सुरेश कुमार ठाकुर (जं. सी.-448623 पी) —01 मार्च 2000 ।

नायब सूबेदार धर्मवीर (जं. सी.-448711 एफ) —01 मार्च 2000 ।

नायब सूबेदार अजाद सिंह राठी (जं. सी.-448521 एफ) —25 मार्च 2000 ।

नायब सूबेदार रघुवीर सिंह (जं. सी.-448214 एफ) —01 अप्रैल 2000 ।

नायब सूबेदार कमल जाबू भाई मूल जी (जं. सी.-448489 पी) —01 अप्रैल 2000 ।

नायब सूबेदार हरीओम सिंह (जं. सी.-448616 एफ) —01 अप्रैल 2000 ।

नायब सूबेदार राम किशन (जं. सी.-448620 एफ) —01 अप्रैल 2000 ।

नायब सूबेदार लूरन चन्द भारद्वाज (जं. सी.-448655 एफ) —01 अप्रैल 2000 ।

नायब सूबेदार मोती लाल (जं. सी.-448538 एफ) —18 अप्रैल 2000 ।

नायब सूबेदार मोहन सिंह (जं. सी.-448272 एफ) —01 मार्च 2000 ।

नायब सूबेदार महेंद्र सिंह राठी (जं. सी.-448507 एफ) —30 मार्च 2000 ।

नायब सूबेदार इरशाद मोहम्मद (जं. सी.-448319 एफ) —01 अगस्त 2000 ।

नायब सूबेदार तुलसी राम (जं. सी.-448652 के) —01 अगस्त 2000 ।

सूबेदार (लिपिक) के रैंक में

नायब सूबेदार (लिपिक) धर्म लाल दुनिया (जं. सी.-448359 एफ) —01 अप्रैल 2000 ।

नायब सूबेदार (लिपिक) उदयवीर सिंह बंस (जं. सी.-448374 एफ) —01 अगस्त 2000 ।

बिहार रजिस्ट्रार

सूबेदार (जी. डी.) के रैंक में

नायब सूबेदार बुलु राम मंड (जं. सी.-558070 पी) —01 अप्रैल 1999 ।

नायब सूबेदार मुन्शी हम्बुस (जं. सी.-558198 एफ) —26 अप्रैल 1999 ।

नायब सूबेदार गवत धर्मा (जं. सी.-211827 ए) —01 अगस्त 1999 ।

नायब सूबेदार गोपाल गंगबासी (जं. सी.-558368 डब्ल्यू) —01 दिसम्बर 1999 ।

नायब सूबेदार सुधास मिश्रा (जं. सी.-558374 के) —13 दिसम्बर 1999 ।

नायब सूबेदार वृज विशार सिंह (जं. सी.-558377 एफ) —07 दिसम्बर 1999 ।

नायब सूबेदार मोहन लाल भाई (जं. सी.-558113 डब्ल्यू) —07 दिसम्बर 1999 ।

नायब सूबेदार धीर बहादुर सिंह (जं. सी.-558378 ए) —07 दिसम्बर 1999 ।

नायब सूबेदार अविनाश तिवारी (जं. सी.-558259 के) —07 दिसम्बर 1999 ।

नायब सूबेदार राजाराम हम्बुस (जं. सी.-558331 पी) —07 दिसम्बर 1999 ।

नायब सूबेदार दिवजेंद्र मिश्रा (जं. सी.-558379 एफ) —07 दिसम्बर 1999 ।

नायब सूबेदार राज किशोर साहू (जं. सी.-558360 के) —07 दिसम्बर 1999 ।

नायब सूबेदार दुख बन्धु गरमायक (जं. सी.-558357 के) —07 दिसम्बर 1999 ।

नायब सूबेदार धाती ओराव (जं. सी.-558342 एफ) —07 दिसम्बर 1999 ।

नायब सूबेदार निम्नेन्द्र सिंह (जं. सी.-558380 एफ) —01 मार्च 2000 ।

नायब सूबेदार कामेश्वर राय (जंसी-558381 ए)—01 मार्च 2000 ।

नायब सूबेदार अनिरुद्ध सिंह यादव (जंसी-558156 एल)—01 जनवरी 1999 ।

नायब सूबेदार विरिन्द्र कुमार सिंह (जंसी-558180 एफ)—01 अप्रैल 1999 ।

नायब सूबेदार विद्याधर राय (जंसी-558191 एन)—01 अप्रैल 1999 ।

नायब सूबेदार जलेंद्र पुर्ती (जंसी-558060 एल)—01 मई 1999 ।

नायब सूबेदार नरेंद्र सिंह (जंसी-558417 एन)—01 मई 1999 ।

नायब सूबेदार नन्द किशोर सिंह (जंसी-225334 के)—01 जून 1999 ।

नायब सूबेदार महेंद्र प्रसाद सिंह (जंसी-558418 डब्ल्यू)—01 जुलाई 1999 ।

नायब सूबेदार रघुनाथ सहू (जंसी-558178 के)—01 अगस्त 1999 ।

नायब सूबेदार बृज किशोर सिंह (जंसी-558501 एन)—01 सितम्बर 1999 ।

नायब सूबेदार मुकुल त्रिपाठी (जंसी-558508 एक्स)—07 दिसम्बर 1999 ।

नायब सूबेदार पशुपति सिंह यादव (जंसी-558507 पी)—07 दिसम्बर 1999 ।

नायब सूबेदार शिव प्रसाद यादव (जंसी-558532 एन)—07 दिसम्बर 1999 ।

नायब सूबेदार बाल मुकुन्द शर्मा (जंसी-558548 वाई)—07 दिसम्बर 1999 ।

नायब सूबेदार सुरेश पुर्ती (जंसी-558299 एल)—01 जनवरी 2000 ।

मराठा लाइफ इन्सुरेंस

सूबेदार मंजर के रैंक में

सूबेदार लक्ष्मण गंगाराम दारदकर (जंसी-167423पी)—01 मई 2000 ।

सूबेदार देवाप्पा बाबाराव विराजदार (जंसी-166689पी)—01 मई 2000 ।

सूबेदार कावडे विलियम दत्ताराव (जंसी-172733के)—02 जुलाई 2000 ।

× (सूबेदार मंजर के रैंक में वृत्तन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 2000 में दी जाती है) ।

सूबेदार ठोंवर ज्ञानोदा रामराव (जंसी-155100ए)—06 सितम्बर 2000 ।

× (सूबेदार मंजर के रैंक में वृत्तन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अगस्त 2000 में दी जाती है) ।

सूबेदार पुण्डलीक काचु तारिहालकर (जंसी-162131एन)—01 अगस्त 2000 ।

सूबेदार भोसले शिवराम बापू (जंसी-179318एल)—01 अगस्त 2000 ।

सूबेदार हरी असाराम बामनाथ (जंसी-168607ए)—01 अक्टूबर 2000 ।

सूबेदार हिंगमिर रागलिंग (जंसी-167422एम)—13 अक्टूबर 2000 ।

× (सूबेदार मंजर के रैंक में वृत्तन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2000 में दी जाती है) ।

सूबेदार मुखनिवार सिंह (जंसी-182960 एक्स)—01 अक्टूबर 2000 ।

सूबेदार मंजर त्रिपिक के रैंक में

सूबेदार त्रिपिक बाबू पाटील (जंसी-188369ए)—01 मई 2000 ।

सूबेदार के रैंक में

नायब सूबेदार चंद्रकांत तुकाराम दशगुप्त (जंसी-458048 एम)—01 मई 2000 ।

नायब सूबेदार थोराल बाजीराव अज्जणा (जंसी-458125 डब्ल्यू)—01 मई 2000 ।

नायब सूबेदार काले राजाराम दत्तू (जंसी-458239एफ)—01 मई 2000 ।

नायब सूबेदार त्रिवाणी अनंत दाजी (जंसी-458024एल)—01 मई 2000 ।

नायब सूबेदार डोंगर मच्छीद्र रांपान (जंसी-458126वाई)—01 मई 2000 ।

नायब सूबेदार माणिकराव जगन्नाथ यदम (जंसी-458089 डब्ल्यू)—01 मई 2000 ।

नायब सूबेदार लक्ष्मण शिवाप्पा उमराणी (जंसी-458140 एल)—01 मई 2000 ।

नायब सूबेदार तिडके रामचंद्र धेंकटराव (जंसी-458094 एफ)—01 मई 2000 ।

नायब सूबेदार शिंदे ज्ञानदत्त विठ्ठल (जंसी-458097पी)—01 मई 2000 ।

नायब सूबेदार ग्यान चंद (जंसी-458109 वाई)—01 मई 2000 ।

नायब सूबेदार शिंदे बालीगन (जंसी-458121ए)—01 मई 2000 ।

नाथब सवेदार रामसा मल्ली (जैसी-458122एन)—01 मई 2000 ।

नाथब सवेदार चरण हरि मण्डल (जैसी-458123एन)—01 मई 2000 ।

नाथब सवेदार सालंसे विजय नथू (जैसी-458127एफ)—01 मई 2000 ।

नाथब सवेदार दत्तशाम रत्नाथ शेट्टी (जैसी-458139इल्य)—01 मई 2000 ।

नाथब सवेदार मधकर रामजी भाते (जैसी-458204एफ)—01 मई 2000 ।

नाथब सवेदार गौरी मोहन कोश्ल (जैसी-458188आई)—01 मई 2000 ।

नाथब सवेदार कल्याण पाटील (जैसी-458192एफ)—01 मई 2000 ।

नाथब सवेदार नारायण काशीदे (जैसी-458216एक्स)—01 मई 2000 ।

नाथब सवेदार तवाटे शिवाजी बाकागाडे (जैसी-458258 एफ)—01 मई 2000 ।

नाथब सवेदार देसाई भीमराव गणपतराव (जैसी-458241 आई)—01 मई 2000 ।

नाथब सवेदार नलवडे हनुमंत हरीभाऊ (जैसी-458257ई)—01 मई 2000 ।

नाथब सवेदार तानाजी विश्वाम पाटील (जैसी-458260के)—01 मई 2000 ।

नाथब सवेदार रैलम विठ्ठल जगन्नाथ (जैसी-458267एन)—01 जन 2000 ।

× (सवेदार को रूक में वृत्त और भस्मों पर प्रभाव डालने विना ज्येष्ठता 01 मई 2000 से दी जाती है) ।

नाथब सवेदार जयशाम नथराम धनवडे (जैसी-458303 एफ)—01 मई 2000 ।

नाथब सवेदार कुमार जैनाथ भरम बाघलकर (जैसी-458305 आई)—01 मई 2000 ।

नाथब सवेदार मन्ता प्रसाद जैमवाल (जैसी-458225एफ)—01 मई 2000 ।

नाथब सवेदार कण्ठकर शेरना भाऊ (जैसी-458202ए)—01 मई 2000 ।

नाथब सवेदार नारायण रामजी पाटील (जैसी-458230एफ)—01 मई 2000 ।

नाथब सवेदार हनुमंत देवीराम कावळे (जैसी-458232एक्स)—01 मई 2000 ।

नाथब सवेदार रामनाथ चंद्रदेव सैनाथ (जैसी-458204 एफ)—01 मई 2000 ।

नाथब सवेदार विनाय पांडुरंग कदम (जैसी-458314ए)—01 मई 2000 ।

नाथब सवेदार देशमय चक्रवर्ती प्रियतराव (जैसी-458272 आई)—01 मई 2000 ।

नाथब सवेदार विठ्ठल मीताराम पांडुरंगकर (जैसी-458295 ए)—01 मई 2000 ।

नाथब सवेदार एम मयद अश्वत्थ अजीस (जैसी-458325 एफ)—01 मई 2000 ।

नाथब सवेदार मोहन विश्वराम बलीराम (जैसी-458251एफ)—01 मई 2000 ।

नाथब सवेदार परमराम पाटील (जैसी-458296एफ)—01 मई 2000 ।

नाथब सवेदार शंभू महबूब बागा (जैसी-458330एक्स)—01 मई 2000 ।

नाथब सवेदार फडतरे प्रकाश धंकरराव (जैसी-458228पी)—01 मई 2000 ।

नाथब सवेदार दशदीपस मारुती कल्याण (जैसी-458329 एफ)—01 मई 2000 ।

नाथब सवेदार गायडे सरेश भादुरावजी (जैसी-458141 एफ)—01 मई 2000 ।

नाथब सवेदार बालकण्ठ विश्वाम रावत (जैसी-458154 एफ)—01 मई 2000 ।

नाथब सवेदार गायबाले हरीदास मदाशिव (जैसी-458240 इल्य)—01 मई 2000 ।

नाथब सवेदार भोगले हिममत केशव (जैसी-458331 ए)—01 मई 2000 ।

नाथब सवेदार नवल अर्जुन एकनाथ (जैसी-458265 एफ)—01 मई 2000 ।

नाथब सवेदार सालंसे जज्जदा रंग (जैसी-458291 के)—01 मई 2000 ।

नाथब सवेदार भोमले काशीनाथ शंकर (जैसी-412967 आई)—01 मई 2000 ।

नाथब सवेदार जाधव अण्णक भागडी (जैसी-458266 एफ)—01 मई 2000 ।

नाथब सवेदार रामनाथ दत्ताराम जलदेव (जैसी-458311 एफ)—01 मई 2000 ।

नाथब सवेदार विठ्ठल नारायण हरीजी (जैसी-458224 एफ)—01 मई 2000 ।

नाथब सवेदार धर्मराव भाते पांडुरंग (जैसी-458302 एफ)—01 मई 2000 ।

नाथब स्वदेदार दत्तात्रय नारायण शिंदे (जेसी-459132 एफ) — 01 मई 2000 ।

नाथब स्वदेदार रमेश नारायण शिंदे (जेसी-458190 एफ) — 01 मई 2000 ।

नाथब स्वदेदार सुरेश ए. जे (जेसी-458242 एफ) — 01 मई 2000 ।

नाथब स्वदेदार महम्मद कजिमल्ला (जेसी-458317 एफ) — 01 मई 2000 ।

नाथब स्वदेदार जिंदे विश्वाम गोविंद (जेसी-458066 जी) — 01 मई 2000 ।

नाथब स्वदेदार नाथ दिवाय बंडोरा (जेसी-458098 एफ) — 01 मई 2000 ।

नाथब स्वदेदार भोकाशी मरदारसाहिब अन्नी शाहणे (जेसी-458261 एफ) — 01 मई 2000 ।

नाथब स्वदेदार मुखटवे मारुजी लेखवे (जेसी-458312 एफ) — 01 मई 2000 ।

नाथब स्वदेदार रमेश हिंदुराव गणपति (जेसी-458333 एफ) — 01 मई 2000 ।

नाथब स्वदेदार पाटील नमदेव फंडेरग (जेसी-459102 जी) — 01 मई 2000 ।

नाथब स्वदेदार धारंग जगन्निशराव अमतराव (जेसी-458196 एफ) — 01 मई 2000 ।

नाथब स्वदेदार प्रकाश विठ्ठल धार (जेसी-458278 ए) — 01 मई 2000 ।

नाथब स्वदेदार सपतलसारा एच. सी (जेसी-458354 एफ) — 01 मई 2000 ।

नाथब स्वदेदार कजिमल्ला नारायण (जेसी-458077 एफ) — 01 मई 2000 ।

नाथब स्वदेदार उम्देव शमराव थाडव (जेसी-458183 ए) — 01 मई 2000 ।

नाथब स्वदेदार परशुराम संभाजी चौखते (जेसी-458181 जी) — 01 मई 2000 ।

नाथब स्वदेदार शिंदे प्रकाश नारायण (जेसी-458250 ए) — 01 मई 2000 ।

नाथब स्वदेदार जमश विठ्ठल धार (जेसी-458316 एफ) — 01 मई 2000 ।

नाथब स्वदेदार लक्ष्मण शण्ण शिंदे (जेसी-523401 ए) — 01 मई 2000 ।

नाथब स्वदेदार पाटील मरदारग धार (जेसी-458360 ए) — 01 मई 2000 ।

नाथब स्वदेदार सल शमराव शिंदे (जेसी-458409 ए) — 01 मई 2000 ।

नाथब स्वदेदार जमश शण्ण शिंदे (जेसी-458368 एफ) — 01 मई 2000 ।

नाथब स्वदेदार लक्ष्मण शण्ण शिंदे (जेसी-458418 एफ) — 01 मई 2000 ।

नाथब स्वदेदार बेल पाटील मरदारग (जेसी-458420 ए) — 01 मई 2000 ।

नाथब स्वदेदार पाटील मोहन फंडेरग (जेसी-458443 ए) — 12 मई 2000 ।

× (स्वदेदार ने रईस में बेल और भेलों पर पत्राचार का बिना ज्येष्ठता 01 मई 2000 में दी जाती है) ।

नाथब स्वदेदार फंडेरग शिंदे चौखते (जेसी-458158 एफ) — 01 मई 2000 ।

नाथब स्वदेदार शमराव आधामादेव धार (जेसी-458264 ए) — 01 मई 2000 ।

नाथब स्वदेदार राजाराम दादराव पाटील (जेसी-458197 ए) — 01 मई 2000 ।

नाथब स्वदेदार लक्ष्मण मरदारग शिंदे (जेसी-458248 एफ) — 01 मई 2000 ।

नाथब स्वदेदार धारंगे प्रदीपकाश दौलत (जेसी-458271 ए) — 01 मई 2000 ।

नाथब स्वदेदार मरदारग शमराव धार (जेसी-458316 ए) — 01 मई 2000 ।

नाथब स्वदेदार मरदारग श्रीमंत महादेव (जेसी-458301 ए) — 01 मई 2000 ।

नाथब स्वदेदार रमेशजी नमरावजी नावलजी (जेसी-458302 ए) — 01 मई 2000 ।

नाथब स्वदेदार सीताराम धार पाटील (जेसी-458312 जी) — 01 मई 2000 ।

नाथब स्वदेदार शमराव अशोक आनंदराव (जेसी-458332 ए) — 01 मई 2000 ।

नाथब स्वदेदार शरद शमराव धार (जेसी-458292 ए) — 01 मई 2000 ।

नाथब स्वदेदार शमराव शमराव धार (जेसी-458324 ए) — 01 मई 2000 ।

नाथब स्वदेदार मरदारग आधामादेव धार (जेसी-458327 ए) — 01 मई 2000 ।

× (स्वदेदार ने रईस में बेल और भेलों पर पत्राचार का बिना ज्येष्ठता 01 मई 2000 में दी जाती है) ।

नाथब स्वदेदार धारंगे शमराव शमराव (जेसी-458414 ए) — 01 मई 2000 ।

नाथब स्वदेदार शमराव धार शिंदे (जेसी-458448 ए) — 01 मई 2000 ।

नाथन सूबेदार भीमाबा लक्ष्मीनंद (जंसी-220716 को) - 01 मई 2000 ।

नाथन सूबेदार भगवान रामचंद्र सर्यपंजी (जंसी-458135 ए) - 01 मई 2000 ।

नाथन सूबेदार मारुती लक्ष्मण मोर (जंसी-458160 को) - 01 मई 2000 ।

नाथन सूबेदार जयधर स्वामी गोपीनाथ (जंसी-458177 एम) - 01 मई 2000 ।

नाथन सूबेदार लालाजी जगदह भोहरणी (जंसी-458211 टी) - 01 मई 2000 ।

नाथन सूबेदार मान उत्तम बाधूसी (जंसी-458259 पी) - 01 मई 2000 ।

नाथन सूबेदार यादव पांडुरंग अर्जुन (जंसी-458240 एम) - 01 मई 2000 ।

नाथन सूबेदार बाबासा शिंदे लाल (जंसी-458269 वाई) - 01 मई 2000 ।

नाथन सूबेदार लाले लकाराम लखाराम (जंसी-458308 एम) - 01 मई 2000 ।

नाथन सूबेदार लालके लखाराम आवासी (जंसी-458335 एम) - 01 मई 2000 ।

नाथन सूबेदार लालके नाथन रामभाऊ (जंसी-458333 एम) - 01 मई 2000 ।

नाथन सूबेदार मनोहर पाटील (जंसी-458326 पी) - 01 मई 2000 ।

नाथन सूबेदार काले बाल दत्त (जंसी-458338 को) - 01 मई 2000 ।

नाथन सूबेदार नाथन भावकाणा लाल (जंसी-458339 एम) - 01 मई 2000 ।

नाथन सूबेदार गोपाळ एम ए (जंसी-458340 एम) - 01 मई 2000 ।

नाथन सूबेदार लक्ष्मण कल्या मोर (जंसी-458341 को) - 13 मई 2000 ।

× (सूबेदार को रक में वन और भत्ता पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मई 2000 से दी जाती है) ।

नाथन सूबेदार निरमल चंद्रकांत आनंदराव (जंसी-458323 ए) - 01 मई 2000 ।

नाथन सूबेदार धोरे मनोहर हरीभाऊ (जंसी-458350 ए) - 01 मई 2000 ।

नाथन सूबेदार गोदाद भिंग (जंसी-458187 उल्लेख) - 01 मई 2000 ।

नाथन सूबेदार अमिताभ हरीगदसे मल्ला (जंसी-458255 एम) - 01 मई 2000 ।

2-47401/2 0

नाथन सूबेदार पाटील गणपत धोबीबा (जंसी-458362 ए) - 01 मई 2000 ।

नाथन सूबेदार सैयद उमर (जंसी-458348 एम) - 01 मई 2000 ।

नाथन सूबेदार रामचंद्र शिंदे शिंदे (जंसी-458337 एम) - 01 मई 2000 ।

नाथन सूबेदार राम शेट्टी (जंसी-458432 एम) - 01 मई 2000 ।

नाथन सूबेदार जगदल अर्जुन बाबा (जंसी-488450 एम) - 01 मई 2000 ।

नाथन सूबेदार माणिकराव शेकराम मराठे (जंसी-458378 एम) - 01 मई 2000 ।

नाथन सूबेदार भास्कर निंबाजी पडवण (जंसी-458383 उल्लेख) - 01 मई 2000 ।

नाथन सूबेदार गणपत अर्जुन कवग (जंसी-458284 एम) - 01 मई 2000 ।

नाथन सूबेदार शिंदे मधकर मोनिगाबा (जंसी-458346 एम) - 01 मई 2000 ।

नाथन सूबेदार कृष्णा शिंदे राम (जंसी-458397 उल्लेख) - 01 अगस्त 2000 ।

× (सूबेदार को रक में वन और भत्ता पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मई 2000 से दी जाती है) ।

नाथन सूबेदार दत्तक प्रकाश बिठोलीराव (जंसी-458355 को) - 01 मई 2000 ।

नाथन सूबेदार एम डी मनीम पाणा (जंसी-458356 एम) - 01 मई 2000 ।

नाथन सूबेदार अधिलाय पाट्याराव भोमर (जंसी-458367 एम) - 01 मई 2000 ।

नाथन सूबेदार हरीबा शिंदे शिंदे (जंसी-458438 पी) - 01 मई 2000 ।

नाथन सूबेदार सा घनाथ रामचंद्र (जंसी-458468 एम) - 01 मई 2000 ।

नाथन सूबेदार आबासाहेब शिंदे शिंदे (जंसी-458276 एम) - 01 मई 2000 ।

नाथन सूबेदार भांगरे शिंदे शिंदे (जंसी-458250 एम) - 01 मई 2000 ।

नाथन सूबेदार शिंदे सुरेण शिंदे शिंदे (जंसी-458357 पी) - 01 मई 2000 ।

नाथन सूबेदार मधन लाल लालराव (जंसी-458369 को) - 01 मई 2000 ।

नायक सुबेदार अण्णासाहेब शंकर सालुंके (जंसी-458451 बाई)—01 मई 2000 ।

नायक सुबेदार माने श्रीराम जोशीराम (जंसी-458395 एल)—01 मई 2000 ।

नायक सुबेदार सखाराम शंकर सालुंके (जंसी-458396 पी)—01 मई 2000 ।

नायक सुबेदार गायधनी रवीन्द्र रत्नचंद (जंसी-458503 के)—01 मई 2000 ।

नायक सुबेदार चन्नीराप्पा (जंसी-458363 एच)—01 मई 2000 ।

नायक सुबेदार आर एन धीरया (जंसी-458398 बाई)—01 मई 2000 ।

नायक सुबेदार मलीक अक़ुष कृष्णा (जंसी-458400 एल)—22 मई 2000 ।×

×(सुबेदार को रैंक में बतन और भत्ता पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मई 2000 से दी जाती है) ।

नायक सुबेदार बलवं विष्णु लुकाराम (जंसी-458411 एक्स)—01 मई 2000 ।

नायक सुबेदार परमेश्वर बलबीर काशंद (जंसी-458370 बाई)—10 जून 2000 ।×

×(सुबेदार को रैंक में बतन और भत्ता पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मई 2000 से दी जाती है) ।

नायक सुबेदार गजेंद्र पोरने (जंसी-458458 एच)—01 मई 2000 ।×

नायक सुबेदार पांडुरंग यल्लाप्पा वेंमुरकर (जंसी-458380 एच)—31 जुलाई 2000 ।×

×(सुबेदार को रैंक में बतन और भत्ता पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मई 2000 से दी जाती है) ।

नायक सुबेदार जाधव हरिश्चंद्र पिन्गजी (जंसी-458462 एल)—23 मई 2000 ।×

×(सुबेदार को रैंक में बतन और भत्ता पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मई 2000 से दी जाती है) ।

नायक सुबेदार वामन किल्लेकर (जंसी-458270 एल)—20 जून 2000 ।×

×(सुबेदार को रैंक में बतन और भत्ता पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 10 मई 2000 से दी जाती है) ।

नायक सुबेदार जगत नागेजी पाटील (जंसी-458304 डब्ल्यू)—25 मई 2000 ।×

×(सुबेदार को रैंक में बतन और भत्ता पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 10 मई 2000 से दी जाती है) ।

नायक सुबेदार आत्माराम शांतिराम कदम (जंसी-458412 ए)—27 अगस्त 2000 ।×

×(सुबेदार को रैंक में बतन और भत्ता पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 14 मई 2000 से दी जाती है) ।

नायक सुबेदार कडतर शंकर यशवंत (जंसी-458277 एक्स)—18 जुलाई 2000 ।×

×(सुबेदार को रैंक में बतन और भत्ता पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 04 जून 2000 से दी जाती है) ।

नायक सुबेदार कदम विलास पांडुरंग (जंसी-458245 पी)—15 अगस्त 2000 ।×

×(सुबेदार को रैंक में बतन और भत्ता पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अगस्त 2000 से दी जाती है) ।

नायक सुबेदार नीलकंठ नाईक (जंसी-458372 के)—04 अगस्त 2000 ।×

×(सुबेदार को रैंक में बतन और भत्ता पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अगस्त 2000 से दी जाती है) ।

नायक सुबेदार शंकर अण्णा सालुंके (जंसी-458460 ए)—04 सितम्बर 2000 ।×

×(सुबेदार को रैंक में बतन और भत्ता पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अगस्त 2000 से दी जाती है) ।

सुबेदार लिपिक को रैंक में

नायक सुबेदार लिपिक टी प्रभाप सिंग (जंसी-458116 पी)—01 मई 2000 ।

नायक सुबेदार लिपिक कोकर भूलाप्पा निवती (जंसी-458115 एम)—01 मई 2000 ।

नायक सुबेदार लिपिक नैमाण त्रिभूक्त गमभव (जंसी-458185 एल)—01 मई 2000 ।

नायक सुबेदार लिपिक हुंवे बाजीराव नामदेव (जंसी-458186 एल)—01 मई 2000 ।

महास रोजमंद

सुबेदार को रैंक में

नायक सुबेदार सुरेश मल्लप्पा कम्मर (जंसी-468106 बाई)—1 जनवरी 2000 ।

नायक सुबेदार बलरामा अर्णी पी (जंसी-548203 के)—1 जनवरी 2000 ।

नायक सुबेदार पी अम्बरोस (जंसी-548232 बाई)—1 जनवरी 2000 ।

नायक सुबेदार अल्मराज को के (जंसी-468361 एल)—1 जनवरी 2000 ।

नायक सुबेदार रवीश्वर एम (जंसी-438243 एम)—1 अगस्त 2000 ।

नायक सुबेदार मनोहरन एम (जंसी-438207 एक्स)—1 जनवरी 2000 ।

नायक सुबेदार अम्बजाकसन टी मी (जंसी-438209 एम)—1 जनवरी 2000 ।

नायब सूबेदार बालाकृष्ण सी बी (जंसी-438210 एक्स)—13 फरवरी 2000 ।

नायब सूबेदार मोहनट्टी बी एम (जंसी-438225 ए)—20 मार्च 2000 ।

जम्मू और कश्मीर लाइट इन्फेन्ट्री

जंसी सूबेदार की पदोन्नति के लिए

नायब सूबेदार (लिपिक) सुरभ चन्व (जंसी-592291 एक्स)—03 अगस्त 2000 ।

जंसी सूबेदार म्यूजिशियन की पदोन्नति के लिए

नायब सूबेदार (म्यूजिशियन) हनुमान गुरंग (जंसी-992167 के)—01 अक्टूबर 96 ।

बी राजपूताना राइफल्स

सूबेदार के रैंक में

नायब सूबेदार प्रेम कुमार चौहान, बीरब्रत (जंसी-226184 एक्स)—15 मार्च 1999 ।

नायब सूबेदार वान सिंह (जंसी-201877 एक्स)—01 मई 1999 ।

नायब सूबेदार भंवर सिंह (जंसी-212571 पी)—01 जून 1999 ।

नायब सूबेदार माल सिंह (जंसी-220166 एम)—01 जून 1999 ।

नायब सूबेदार आनंद प्रकाश सिंह (जंसी-468018 एच)—01 अगस्त 1999 ।

नायब सूबेदार मदन सिंह (जंसी-468072 डब्ल्यू)—01 अगस्त 1999 ।

नायब सूबेदार आनंद सिंह शंखावत (जंसी-468163 ए)—01 अक्टूबर 1999 ।

नायब सूबेदार राम सिंह राहुर (जंसी-468071 एन)—07 दिसम्बर 1999 ।

नायब सूबेदार सींहलामबा सिंह (जंसी-468082 ए)—07 दिसम्बर 1999 ।

नायब सूबेदार रत्ना राम बागारिया (जंसी-468094 पी)—07 दिसम्बर 1999 ।

नायब सूबेदार आलम सिंह (जंसी-468164 एच)—07 दिसम्बर 1999 ।

नायब सूबेदार जितेंद्र सिंह (जंसी-468171 वाई)—07 दिसम्बर 1999 ।

3 जी आर

सूबेदार (लिपिक) के रैंक में

नायब सूबेदार (लिपिक) गंगा बहादुर मुख्या (जंसी-607158 एक्स)—01 अगस्त 2000 ।

नायब सूबेदार (लिपिक) रामा कुमार एन एच (जंसी-607168 एम)—01 अगस्त 2000 ।

नायब सूबेदार (लिपिक) बृगा बहादुर श्रेणी (जंसी-607178 डब्ल्यू)—01 नवम्बर 2000 ।

नायब सूबेदार (लिपिक) रामन कुमार सोम (जंसी-607187 एक्स)—01 दिसम्बर 2000 ।

सूबेदार मंजर (लिपिक) के रैंक में

सूबेदार (लिपिक) मदन सिंह (जंसी-205377 एक्स)—01 नवम्बर 2000 ।

सूबेदार मंजर के रैंक में

सूबेदार बीक बहादुर भापा (जंसी-172058 एच)—01 दिसम्बर 2000 ।

सिख लाइट इन्फेन्ट्री सूबेदार (क्लर्क) के रैंक में

नायब सूबेदार (क्लर्क) बलबीर सिंह (जंसी-508323 ए)—01 दिसम्बर 2000 ।

नायब सूबेदार (क्लर्क) रूप सिंह (जंसी-508331 वाई)—01 अक्टूबर 2000 ।

नायब सूबेदार (क्लर्क) राजेंद्र सिंह गुराखा (जंसी-508344 डब्ल्यू)—01 अक्टूबर 2000 ।

नायब सूबेदार (क्लर्क) राम पाल राणा (जंसी-508345 वाई)—02 नवम्बर 2000 ।

सूबेदार (जी. डी.) के रैंक में

नायब सूबेदार रघबीर सिंह (जंसी-508298 एम)—22 दिसम्बर 1999 ।

नायब सूबेदार सुरजीत सिंह (जंसी-508260 एच)—22 दिसम्बर 1999 ।

नायब सूबेदार अमरजीत सिंह (जंसी-508268 पी)—22 दिसम्बर 1999 ।

नायब सूबेदार गीमन्दर सिंह (जंसी-508127 ए)—01 जनवरी 2000 ।

सूबेदार (क्लर्क) के रैंक में

नायब सूबेदार (क्लर्क) बलबिन्दर सिंह (जंसी-508378 के)—01 अगस्त 2000 ।

नायब सूबेदार (क्लर्क) बृटा सिंह (जंसी-508413 एफ)—01 दिसम्बर 2000 ।

नायब सूबेदार (क्लर्क) बलदेव सिंह (जंसी-508414 के)—01 दिसम्बर 2000 ।

डॉक्टरा रोजेमेंट

सूबेदार के रैंक में

नायब सूबेदार रमेश चन्व (जंसी-519030 पी)—01 जून 2000 ।

नायब सूबेदार रतन लाल (जंसी-518904एल)—25 जून 2000 ।

सूबेदार मेजर के रैंक में

सूबेदार रूप लाल वर्मा (जंसी-192446एफ)—01 फरवरी 2000 ।

सूबेदार बोपक कुमार चौहान (जंसी-518032 एन)—01 अगस्त 2000 ।

सूबेदार के रैंक में

नायब सूबेदार राम लाल (जंसी-518335एफ)—22 दिसम्बर 1999 ।

नायब सूबेदार वसे राज बिमान (जंसी-518384एल)—22 दिसम्बर 1999 ।

नायब सूबेदार बलदेव राज प्रागर (जंसी-518358कै)—22 दिसम्बर 1999 ।

नायब सूबेदार रणवीर सिंह (जंसी-518633 बाई)—01 जनवरी 2000 ।

नायब सूबेदार देशराज जगवाल (जंसी-518634एफ)—03 जुलाई 2000 ।

नायब सूबेदार मनोहर सिंह (जंसी-518671पी)—09 जुलाई 2000 ।

नायब सूबेदार किशोरी लाल (जंसी-518683कै)—01 सितम्बर 2000 ।

सूबेदार लिपिक के रैंक में

नायब सूबेदार लिपिक कमलेश चन्द (जंसी-518543एक्स)—01 जून 2000 ।

नायब सूबेदार लिपिक सुरेश कुमार ठाकुर (जंसी-518567 एफ)—01 सितम्बर 2000 ।

कुमाऊं रेजिमेंट

सूबेदार मेजर के रैंक में

सूबेदार ब्रह्मा नन्द यादव (जे० सी०-219740 एन०)—2 अगस्त, 2000 ।

सूबेदार रजनीत सिंह यादवा (जे० सी०-193003 एम०)—29 जुलाई, 2000 ।

सूबेदार लक्ष्मण सिंह (जे० सी०-178034 एफ०)—01 अगस्त, 2000 ।

सूबेदार गोपाल सिंह गड़िया (जे० सी०-159032 पी०)—01 अगस्त, 2000 ।

सूबेदार मदन मोहन सिंह (जे० सी०-183053 के०)—01 सितम्बर, 2000 ।

सूबेदार नरेन्द्रा सिंह (जे० सी०-201108 एन०)—09 अक्टूबर, 2000 ।

सूबेदार त्रिलोक सिंह (जे० सी०-183054 एम०)—01 अक्टूबर, 2000 ।

सूबेदार के रैंक में

नायब सूबेदार प्रताप सिंह नगरकोटी (जे० सी०-538100 एक्स)—23 मार्च, 2000 ।

नायब सूबेदार त्रिलोक सिंह (जे० सी०-538130 पी०)—23 मार्च, 2000 ।

नायब सूबेदार स्वर्ण सिंह (जे० सी०-538146 एक्स)—23 मार्च, 2000 ।

नायब सूबेदार खरक सिंह (जे० सी०-538248 एक्स०)—07 अगस्त, 2000 ।

नायब सूबेदार हीरा सिंह (जे० सी०-538249 बाई०)—09 सितम्बर, 2000 ।

नायब सूबेदार धरम बीर (जे० सी०-538458 उ०—09 दिसम्बर, 1999 ।

नायब सूबेदार फतेह सिंह (जे० सी०-538459 बाई०)—09 दिसम्बर, 1999 ।

नायब सूबेदार सरजीत सिंह (जे० सी०-538663 एक्स०)—05 अप्रैल, 2000 ।

नायब सूबेदार पूरन सिंह (जे० सी०-538471 ए०)—24 अक्टूबर, 2000 ।

नागा रेजिमेंट

नायब सूबेदार बलबीर सिंह (जे० सी०-590052 एक्स)—19 मार्च, 2000 ।

नायब सूबेदार एम अलिवा (जे० सी०-590022 ए०)—26 फरवरी, 2000 ।

नायब सूबेदार पी० अशुली माव (जे० सी०-590026 ए०)—01 अप्रैल 2000 ।

नायब सूबेदार बाई० छेमसे (जे० सी०-590037 ए०)—01 अप्रैल, 2000 ।

कुमाऊं रेजिमेंट

सूबेदार के रैंक में

नायब सूबेदार प्रताप सिंह (जे० सी०-538674 के०)—28 जुलाई, 2000 ।

नायब सूबेदार पुस्कर चन्ना (जे० सी०-538690 एफ०)—01 अगस्त, 2000 ।

सूबेदार अमर सिंह (जे० सी०-538211 पी०)—01 मई, 2000 ।

नायब सूबेदार विष्णु सिंह (जे० सी०-538304 के०)—01 अगस्त, 2000 ।

नायब सूबेदार पुस्कर सिंह (जे० सी०-538306 पी०)—14 अगस्त, 2000 ।

नायब सूबेदार ठाकुर सिंह परिहार (जे० सी०-538323 पी०)—14 अगस्त, 2000 ।

नायब सूबेदार मनोहर सिंह (जे० सी०-538324 एक्स०)—19 सितम्बर, 2000।

नायब सूबेदार मोहन सिंह (जे० सी०-538327 एल०)—02 अक्टूबर, 2000।

नायब सूबेदार धन सिंह परिहार (जे० सी०-538180 ए०)—01 अगस्त, 2000।

नायब सूबेदार बसन्त राम (जे० सी०-538299 के०)—01 अगस्त, 2000।

नायब सूबेदार खुशाल सिंह (जे० सी०-538351 एफ०)—31 अगस्त, 2000।

नायब सूबेदार गोविन्द सिंह (सेना मेडल) (जे० सी०-538738 के०)—25 सितम्बर, 2000।

नायब सूबेदार रघुवीर सिंह (जे० सी०-538596 डब्ल्यू०)—01 सितम्बर, 1999।

नायब सूबेदार भीम सिंह रजवार (जे० सी०-538665 के०)—25 मार्च, 2000।

नायब सूबेदार कैलाश चन्दर (जे० सी०-538666 एल०)—16 मई, 2000।

नायब सूबेदार प्रकाश राम आर्या (जे० सी०-538702 एल०)—16 मई, 2000।

नायब सूबेदार हरक सिंह (जे० सी०-538383 के०)—10 जुलाई, 2000।

नागा रेजिमेंट

नायब सूबेदार एल० एच० कोलोवेसन अनाल (जे० सी०-590024 एल०)—06 अप्रैल, 2000।

नायब सूबेदार नारायण दत्त (जे० सी०-590033 एम०)—01 फरवरी, 2000।

नायब सूबेदार पोखर सिंह (जे० सी०-590034 पी०)—01 फरवरी, 2000।

नायब सूबेदार खेम सिंह (जे० सी०-590035 एक्स०)—08 मार्च, 2000।

नायब सूबेदार चन्द्रवीर राना (जे० सी०-590038 एल०)—27 मई, 2000।

नायब सूबेदार हयात सिंह (जे० सी०-590042 एन०)—08 मई, 2000।

पैराशूट रेजिमेंट

सूबेदार मेजर के रैंक में

सूबेदार पाटील मोहन पान्डुरंग (जे० सी०-180832 एफ०)—01 जुलाई, 2000।

सूबेदार रति राम (जे० सी०-194508 पी०)—01 सितम्बर, 2000।

सूबेदार तेज करम (जे० सी०-205043 एच०)—01 अक्टूबर, 2000।

सूबेदार मोहन चन्द (जे० सी०-205048 एफ०)—01 अक्टूबर, 2000।

सूबेदार रोशन लाल (जे० सी०-184267 एम०)—01 नवम्बर, 2000।

सूबेदार के रैंक में

नायब सूबेदार कमलेश्वर प्रसाद (जे० सी०-412117 वाई०)—01 मई, 1999।

नायब सूबेदार अर्जुन निगप्पा आस्तेकर (जे० सी०-412270 पी०)—01 जनवरी, 2000।

नायब सूबेदार मन्त राम (जे० सी०-412164 डब्ल्यू०)—04 फरवरी, 2000।

नायब सूबेदार तरलोक सिंह (जे० सी०-412058 एक्स०)—01 अप्रैल, 2000।

नायब सूबेदार जवाहर सिंह (जे० सी०-412356 एन०)—01 मई, 2000।

नायब सूबेदार प्यारे लाल (जे० सी०-412056 एम०)—01 जून, 2000।

नायब सूबेदार राम मेहर सिंह (जे० सी०-412057 पी०)—01 जून, 2000।

नायब सूबेदार हीरा सिंह मेहता (जे० सी०-412201 वाई०)—01 जून, 2000।

नायब सूबेदार गोविन्द सिंह (जे० सी०-412202 एफ०)—01 जुलाई, 2000।

नायब सूबेदार राम फल (जे० सी०-412346 के०)—03 जुलाई, 2000।

नायब सूबेदार सतीश कुमार थापा (जे० सी०-412333 एम०)—01 अगस्त, 2000।

नायब सूबेदार हीरा सिंह राना (जे० सी०-412369 एम०)—01 अगस्त, 2000।

नायब सूबेदार ओंकार चन्द राना (जे० सी०-412407 डब्ल्यू०)—01 अक्टूबर, 2000।

नायब सूबेदार जोगिन्दर सिंह (जे० सी०-412364 एम०)—01 नवम्बर, 2000।

नायब सूबेदार जोगा सिंह (जे० सी०-412408 वाई०)—01 नवम्बर, 2000।

11 जी० आर०

सूबेदार के रैंक में

नायब सूबेदार आश बहादुर राई (जे० सी०-634138 वाई०)—07 दिसम्बर, 99।

नायब सूबेदार शिव कुमार राई (जे० सी०-634133 ए०)—07 दिसम्बर, 99।

नायब सूबेदार प्रेम बहादुर लिम्बु (जे० सी०-634134 एच) — 07 दिसम्बर, 99 ।

नायब सूबेदार लाल बहादुर धले (जे० सी०-634132 एक्स) — 07 दिसम्बर, 99 ।

नायब सूबेदार सुरेन कुमार राई (जे० सी०-634143 एक्स) — 07 दिसम्बर, 99 ।

नायब सूबेदार किशोर सिंह राई (जे० सी०-634154 डब्ल्यू) — 07 दिसम्बर, 99 ।

नायब सूबेदार माधन बहादुर राई (जे० सी०-634155 वार्ड) — 07 दिसम्बर, 99 ।

नायब सूबेदार मान धोजसुब्बा (जे० सी०-634165 एच) — 07 दिसम्बर, 99 ।

नायब सूबेदार मनी राई (जे० सी०-634166 एल) — 07 दिसम्बर, 99 ।

नायब सूबेदार अरुण कुमार राई (जे० सी०-634167 एम) — 07 दिसम्बर, 99 ।

नायब सूबेदार विष्णु कुमार सुब्बा (जे० सी०-634199 डब्ल्यू) — 07 दिसम्बर, 99 ।

नायब सूबेदार अनिल कुमार राई (जे० सी०-634200 ए) — 07 दिसम्बर, 99 ।

नायब सूबेदार केन्द्र बहादुर लिम्बु (जे० सी०-634201 एच) — 07 दिसम्बर, 99 ।

नायब सूबेदार हर्क वीर राई (जे० सी०-634202 एल) — 07 दिसम्बर, 99 ।

नायब सूबेदार तेजु राम प्रधान (जे० सी०-634205 वार्ड) — 07 दिसम्बर, 99 ।

नायब सूबेदार चक्र बहादुर गुरुंग, (जे० सी०-634206 एफ) — 01 जनवरी, 2000 ।

नायब सूबेदार प्रसाद मान राई (जे० सी०-634218 डब्ल्यू) — 01 जनवरी, 2000 ।

नायब सूबेदार नेत्र प्रसाद निम्लेकु (जे० सी०-634223 एफ) — 01 जनवरी, 2000 ।

नायब सूबेदार शिगु पाल लिम्बु (जे० सी०-634225 एम) — 01 जनवरी, 2000 ।

नायब सूबेदार पुर्ण बहादुर तामाङ (जे० सी०-634227 एक्स) — 01 जनवरी, 2000 ।

नायब सूबेदार समशेर सिंह (जे० सी०-634228 ए) — 01 जनवरी, 2000 ।

नायब सूबेदार मर बहादुर लिम्बु (जे० सी०-634237 एफ) — 01 जनवरी, 2000 ।

नायब सूबेदार ध्रुव कुमार राई (जे० सी०-634242 एम) — 01 जनवरी, 2000 ।

नायब सूबेदार मन बहादुर लिम्बु (जे० सी०-634243 पी) — 01 जनवरी, 2000 ।

नायब सूबेदार दिल बहादुर मुंघ (जे० सी०-634244 एफ) — 01 अप्रैल, 2000

नायब सूबेदार रत्न बहादुर राई (जे० सी०-634245 ए) — 08 मई 2000 ।

नायब सूबेदार काजी मान लिम्बु (जे० सी०-634248 एन) — 01 जुलाई, 2000 ।

11 जी आर

सूबेदार मेजर के रैंक में

सूबेदार (लिपिक) बुर्गा प्रसाद सुब्बा (जे० सी०-216948 एल) — 01 अगस्त, 2000 ।

सूबेदार पदम बहादुर प्रधान (जे० सी०-162341 एच) — 01 सितम्बर, 2000 ।

सूबेदार के रैंक में

नायब सूबेदार (लिपिक) दावा दोर्जी तामाङ (जे० सी०-634103 एच) — 07 दिसम्बर, 1999 ।

नायब सूबेदार (लिपिक) सर्वजीत राई (जे० सी०-634114 पी) — 07 दिसम्बर, 1999 ।

नायब सूबेदार (लिपिक) विजयम पिल्ले के० (जे० सी०-634115 एक्स) — 01 अगस्त, 2000 ।

नायब सूबेदार अनिल कुमार सुब्बा (जे० सी०-634083 एच) — 01 अक्टूबर, 2000 ।

बी० पी० वर्गीज,
अवर सचिव

थल सेना विभाग

सं० 92, दिनांक 24 जनवरी, 2001 — राष्ट्रपति निम्न-लिखित पदोन्नतियाँ करते हैं ।

नियमित सेना

फायनियर कोर

मबस्टेंटिब सूबेदार मेजर (जी० डी०) के रैंक में

सूबेदार (जी० डी०) सतम अल्ली (जे० सी०-188787 पी) — 01 अक्टूबर, 2000 ।

नायब सूबेदार (क्लर्क एवम् जी० डी०) के रैंक में

हवलदार (जी० डी०) बुधो राम (8024828 पी० अब जे० सी०-829233 एल) — 06 नवम्बर, 2000 ।*

हवलदार (क्लर्क) बलदेव चन्द राना (8032043 ए० अब जे० सी०-829234 एन) — 23 नवम्बर, 2000 ।@

* (नायब सूबेदार (जी० डी०) के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव वाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2000 से दी जाएगी) ।

@नायब सूबेदार (क्लर्क) के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2000 से दी जायेगी।

नायब सूबेदार (जी० डी०) के रैंक में

हवलदार (जी० डी०) सुरिन्दर प्रसाद सिंह (8025695 डब्ल्यू० अब जे० सी०-829227 एक्स)-30 जुलाई, 2000।*

हवलदार (जी० डी०) लक्ष्मण लाल मंगलाजी मोघिया (8024940 एफ० अब जे० सी०-829229 एच)-18 सितम्बर 2000।@

हवलदार (जी० डी०) महम्मद मिरज अहमद (8025770 पी० अब जे० सी०-829228 ए)-15 जुलाई, 2000।&

हवलदार (जी० डी०) विजय सिंह (8025884 ए० अब जे० सी०-829232 एच)-28 अक्तूबर, 2000।£

हवलदार (जी० डी०) दान सिंह (8025595 एल० अब जे० सी०-829230 एक्स)-14 अक्तूबर, 2000।

हवलदार (जी० डी०) अब्दुल सिद्दीक (8025920 ए अब जे० सी०-829231 ए)-06 सितम्बर, 2000।%

*नायब सूबेदार (जी० डी०) के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल, 2000 से दी जाएगी।

@नायब सूबेदार (जी० डी०) के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2000 से दी जाएगी।

&नायब सूबेदार (जी० डी०) के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 2000 से दी जाएगी।

£ नायब सूबेदार (जी० डी०) के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अगस्त 2000 से दी जाएगी।

%नायब सूबेदार (जी० डी०) के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 सितम्बर, 2000 से दी जाएगी।

वायु रक्षा तोपखाना कोर

सम्बन्धित सूबेदार (जी० डी०) के पद में

नायब सूबेदार महेन्द्र नाथ नाईक (जे० सी०-296555 ए)-30 सितम्बर, 2000/10 जनवरी, 2000।*

नायब सूबेदार जगदीश सिंह (जे० सी०-296614 एफ)-12 जून, 2000/01 जून, 2000।*

नायब सूबेदार श्री राम बर्मा (जे० सी०-296752 एच)-27 जून, 2000/01 जून, 2000।*

नायब सूबेदार सत्यभान सिंह (जे० सी०-297084 एन)-05 जुलाई, 2000/01 जून, 2000।*

नायब सूबेदार ओम चंद (जे० सी०-296393 ए)-01 अक्तूबर, 2000/20 जून, 2000।*

नायब सूबेदार महेन्द्र सिंह (जे० सी०-297051 वाई)-17 सितम्बर, 2000/20 जून, 2000।*

नायब सूबेदार ए० ग्लेडवीन गोकीला दास (जे० सी०-296228 पी)-16 नवम्बर, 2000/30 जून, 2000।*

नायब सूबेदार देवराज (जे० सी०-226470 एम)-12 अगस्त, 2000/01 अगस्त, 2000।*

नायब सूबेदार सुखपाल सिंह (जे० सी०-255920 एफ)-09 सितम्बर, 2000/01 अगस्त, 2000।*

नायब सूबेदार खरग सिंह (जे० सी०-256785 एल)-14 अगस्त, 2000/01 अगस्त, 2000।*

नायब सूबेदार लखन सिंह (जे० सी०-296128 के)-23 सितम्बर, 2000/01 अगस्त, 2000।*

नायब सूबेदार विठल टाकैकर (जे० सी०-296223 डब्ल्यू)-29 सितम्बर, 2000/01 अगस्त, 2000।*

नायब सूबेदार दर्शन सिंह (जे० सी०-296418 एफ)-29 अगस्त, 2000/01 अगस्त, 2000।*

नायब सूबेदार जगदीश चंद्र वाघव (जे० सी०-296434 वाई)-23 सितम्बर, 2000/01 अगस्त, 2000।*

नायब सूबेदार कृष्णा बहादुर थापा (जे० सी०-296579 के)-30 सितम्बर, 2000/01 अगस्त, 2000।*

नायब सूबेदार दारोगा सिंह (जे० सी०-296686 एल)-01 अगस्त, 2000।

नायब सूबेदार जी मनी (जे० सी०-296726 एफ)-22 सितम्बर, 2000/01 अगस्त, 2000।*

नायब सूबेदार प्रताप सिंह (जे० सी०-296917 डब्ल्यू)-02 सितम्बर, 2000/01 अगस्त, 2000।*

नायब सूबेदार मोहम्मद जाकीर हुसैन (जे० सी०-297146 वाई)-03 अक्तूबर, 2000/01 अगस्त, 2000।*

नायब सूबेदार प्रेम नाथ मिश्रा (जे० सी०-296282 एच)-20 नवम्बर, 2000/05 अगस्त, 2000।*

नायब सूबेदार धर्मवीर (जे० सी०-297014 एल)-26 सितम्बर, 2000/21 अगस्त, 2000।*

नायब सूबेदार मदन सिंह (जे० सी०-256342 के)-11 सितम्बर, 2000/01 सितम्बर, 2000।*

नायब सूबेदार शीश राम (जे० सी०-296301 एल)-02 सितम्बर, 2000/01 सितम्बर, 2000।*

नायब सूबेदार फरेंद्र बहादुर छेत्री (जे० सी०-256353 डब्ल्यू)-11 सितम्बर, 2000/01 सितम्बर, 2000।*

नायब सूबेदार सुरेन्द्र सिंह (जे० सी०-296072 एच)-09 सितम्बर, 2000/01 सितम्बर, 2000।*

नायब सूबेदार रंजित सिंह (जे० सी०-296260 के)-24 सितम्बर, 2000/01 सितम्बर, 2000।*

नायब सूबेदार धर्मानंदन (जे० सी०-296373 एम)-08 सितम्बर, 2000/01 सितम्बर, 2000।*

नायब सूबेदार मान सिंह यादव (जे० सी-296481 डब्ल्यू) — 30 सितम्बर, 2000/01 सितम्बर, 2000 ।*

नायब सूबेदार सुरिन्द्र पाल सिंह (जे० सी-296857 एम) — 01 अक्टूबर, 2000/01 सितम्बर, 2000 ।*

नायब सूबेदार घनीश्याम सुदान (जे० सी-296680 के) — 14 सितम्बर, 2000/01 सितम्बर, 2000 ।*

नायब सूबेदार कन्हैया सिंह (जे० सी-296636 ए) — 18 सितम्बर, 2000/01 सितम्बर, 2000 ।*

नायब सूबेदार राम स्वामी (जे० सी-296710 डब्ल्यू) — 19 नवम्बर, 2000/01 सितम्बर, 2000 ।*

नायब सूबेदार लक्ष्मी नाराईन (जे० सी-296865 एल) — 09 सितम्बर, 2000/01 सितम्बर, 2000 ।*

नायब सूबेदार जरनैल सिंह (जे० सी-297130 एन) — 17 सितम्बर, 2000/01 सितम्बर, 2000 ।*

नायब सूबेदार दिलबाघ सिंह (जे० सी-297193 डब्ल्यू) — 15 सितम्बर, 2000/01 सितम्बर, 2000 ।*

नायब सूबेदार परिमल चौधरी (जे० सी-297175 एन) — 29 सितम्बर, 2000/01 सितम्बर, 2000 ।*

नायब सूबेदार मलूक सिंह (जे० सी-296725 वाई) — 16 नवम्बर, 2000/22 सितम्बर, 2000 ।*

नायब सूबेदार डामर बहादुर पुन (जे० सी-296134 एक्स) — 14 अक्टूबर, 2000/01 अक्टूबर, 2000 ।*

नायब सूबेदार मोहिन्द्र सिंह (जे० सी-296244 एम) — 15 नवम्बर, 2000/01 अक्टूबर, 2000 ।*

नायब सूबेदार उमेश चद्र (जे० सी-296372 के) — 01 अक्टूबर, 2000 ।

नायब सूबेदार कुलवंत सिंह (जे० सी-296375 एक्स) — 18 अक्टूबर, 2000/01 अक्टूबर, 2000 ।*

नायब सूबेदार मुकुन्दन पी० एस० (जे० सी-296448 वाई) — 19 नवम्बर, 2000/01 अक्टूबर, 2000 ।*

नायब सूबेदार रघबीर सिंह (जे० सी-296401 एन) — 01 अक्टूबर, 2000 ।*

नायब सूबेदार जयकाता बोरा (जे० सी-296986 एम) — 20 नवम्बर, 2000/01 अक्टूबर, 2000 ।*

नायब सूबेदार करम चंद (जे० सी-297049 एफ) — 01 अक्टूबर, 2000 ।

नायब सूबेदार महेन्द्र कुमार स्वामी (जे० सी-297248 पी) — 20 नवम्बर, 2000/13 अक्टूबर, 2000 ।*

नायब सूबेदार स्याम प्रसाद बेहग (जे० सी-296307 के) — 01 नवम्बर, 2000 ।

नायब सूबेदार बीरेन्द्र सिंह (जे० सी-296486 पी) — 19 नवम्बर, 2000/01 नवम्बर, 2000 ।*

नायब सूबेदार होले शिवाजी देवराज (जे० सी-296511 डब्ल्यू) — 17 नवम्बर, 2000/01 नवम्बर, 2000 ।*

नायब सूबेदार ज्वाला शर्मा (जे० सी-296760 एफ) — 06 नवम्बर, 2000/01 नवम्बर, 2000 ।*

नायब सूबेदार सुरेन्द्र सिंह राघव (जे० सी-297054 एम) — 01 नवम्बर, 2000 ।

नायब सूबेदार ईश्वर सिंह यादवा (जे० सी-297158 एन) — 01 नवम्बर, 2000 ।

*पदोन्नति के लिए ज्येष्ठता ।

आर० चतुर्वेदी, अवर सचिव

स० 93, दिनांक 22 जनवरी, 2001—राष्ट्रपति निम्नलिखित अधिकारी की सहर्ष पदोन्नति करते हैं ।

प्रादेशिक सेना

प्रादेशिक कमीशन

कैप्टन से मेजर बनाया जाता है ।

ए० एस० तपादार टी० ए०—41865, इंजीनियर्स—04 जुलाई, 2000 ।

बी० एन० सिंह, अवर सचिव

स० 94, दिनांक 25 जनवरी, 2001—थल सेना अनुदेश 15/79 तथा उनमें किए गए संशोधन के अधीन राष्ट्रपति महर्ष निम्नलिखित पदोन्नति करते हैं:—

नियमित सेना

सैनिक दन्त चिकित्सा कौश

(अल्पकालीन कमीशन)

कैप्टन से अर्द्धस्थायी मेजर के रैंक में

सुरेन्द्र शर्मा (डी० एस०—11890 एल) — 24 जुलाई, 2000 ।

थल सेना अनुदेश 37/78, तथा उनमें किए गए संशोधन के अधीन राष्ट्रपति सहर्ष निम्नलिखित पदोन्नति करते हैं:—

नियमित सेना

सैनिक दन्त चिकित्सा कौश

(स्थायी कमीशन)

लेफ्टिनेंट से कैप्टन के पद पर

ऊनीत नाकरा (डी० आर०—10499 एफ) — 25 अगस्त, 2000 ।

आर० के० सेठी

ब्रिगेडियर

उप पी० जी० डी० एस०

गं० 95, दिनांक 25 जनवरी, 2001—राष्ट्रपति
मिशन/विपिन पटेल/सि कर्मा है - -

स्थायी कर्मचारी

कर्मचारी से मिशन/विपिन के पद पर

ए० एम० कस्तूरी (एम० आर०-2451) ए० एम०
सी०/पी० सी० 24-09-99 (ज्येष्ठता उनके वेतन व पेंशन
पर प्रभाव डाले बिना 01-02-98)।

एम० आलम (एम० आर०-2043) ए० एम० सी०/
पी० सी० 28-08-99 (ज्येष्ठता उनके वेतन व पेंशन
पर प्रभाव डाले बिना 23-08-99)।

रामजी राय (एम० आर०-2064) ए० एम० सी०/
पी० सी० 28-04-2000 (ज्येष्ठता उनके वेतन व
पेंशन पर प्रभाव डाले बिना 28-04-2000)।

अशोक कुमार (एम० आर०-2059) ए० एम०
सी०/पी० सी० 01-05-2000 (ज्येष्ठता उनके वेतन
व पेंशन पर प्रभाव डाले बिना 01-05-2000)।

बी० मदानन्दा (एम० आर०-2051) ए० एम०
सी०/पी० सी० 29-6-2000 (ज्येष्ठता उनके वेतन व
पेंशन पर प्रभाव डाले बिना 24-05-2000)।

एम० एल० चावला (एम० आर०-2068) ए०
एम० सी०/पी० सी० 02-06-2000 (ज्येष्ठता उनके
वेतन व पेंशन पर प्रभाव डाले बिना 01-06-2000)।

वै० बी० सूरि, बी० एम० एम० (एम० आर०-2686)
ए० एम० सी०/पी० सी० 01-06-2000 (ज्येष्ठता उनके वेतन
व पेंशन पर प्रभाव डाले बिना 01-06-2000)।

के० एम० मुर्ती (एम० आर०-2747) ए० एम०
सी०/पी० सी० 22-6-2000 (ज्येष्ठता उनके वेतन व
पेंशन पर प्रभाव डाले बिना 01-06-2000)।

ए० के० बक्शी (एम० आर०-2745) ए० एम०
सी०/पी० सी० 12-06-2000 (ज्येष्ठता उनके वेतन
व पेंशन पर प्रभाव डाले बिना 01-06-2000)।

श्रीमती अरु मातवन्दा, बी० एम० एम० (एम०
आर०-4353) ए० एम० सी०/पी० सी० 01-06-2000
(ज्येष्ठता उनके वेतन व पेंशन पर प्रभाव डाले बिना
01-06-2000)।

ए० बी० प्रधान (एम० आर०-2920) ए० एम०
सी०/पी० सी० 02-06-2000 (ज्येष्ठता उनके वेतन
व पेंशन पर प्रभाव डाले बिना 01-06-2000)।

बी० एल० बोरसोडन (एम० आर०-2852) ए०
एम० सी०/पी० सी० 10-8-00 (ज्येष्ठता उनके वेतन
व पेंशन पर प्रभाव डाले बिना 01-06-2000)।

डी० पी० अस्थाना (एम० आर०-3603) ए० एम०
सी०/पी० सी० 01-06-2000 (ज्येष्ठता उनके वेतन
व पेंशन पर प्रभाव डाले बिना 01-06-2000)।

जी० सी० ब्रह्मा (एम० आर०-4602) ए० एम०
सी०/पी० सी० 01-06-2000 (ज्येष्ठता उनके वेतन
व पेंशन पर प्रभाव डाले बिना 01-06-2000)।

सी० जी० चालरमथा (एम० आर०-2192) ए०
एम० सी०/पी० सी० 02-06-2000 (ज्येष्ठता उनके
वेतन व पेंशन पर प्रभाव डाले बिना 01-06-2000)।

पी० डी० एम० राणा (एम० आर०-2966) ए०
एम० सी०/पी० सी० 30-6-2000 (ज्येष्ठता उनके वेतन
व पेंशन पर प्रभाव डाले बिना 01-06-2000)।

एम० एल० वर्मा (एम० आर०-2823) ए० एम०
सी०/पी० सी० 03-06-2000 (ज्येष्ठता उनके वेतन
व पेंशन पर प्रभाव डाले बिना 01-06-2000)।

आर० के० जे (एम० आर०-2807) ए० एम०
सी०/पी० सी० 01-06-2000 (ज्येष्ठता उनके वेतन
व पेंशन पर प्रभाव डाले बिना 01-06-2000)।

श्रीमती पी० अरोरा (एम० आर०-2249) ए०
एम० सी०/पी० सी० 01-06-2000 (ज्येष्ठता उनके
वेतन व पेंशन पर प्रभाव डाले बिना 01-06-2000)।

एम० पी० बी० जयप्रकाश (एम० आर०-2250)
ए० एम० सी०/पी० सी० 01-06-2000 (ज्येष्ठता उनके
वेतन व पेंशन पर प्रभाव डाले बिना 01-06-2000)।

सी० एम० अशरफ (एम० आर०-2240) ए० एम०
सी०/पी० सी० 01-06-2000 (ज्येष्ठता उनके वेतन
व पेंशन पर प्रभाव डाले बिना 01-06-2000)।

ले० कर्मल से कर्मल के पद पर

पी० मनोहरन (एम० आर०-3896) ए० एम०
सी०/पी० सी० 02-06-2000 (ज्येष्ठता उनके वेतन
व पेंशन पर प्रभाव डाले बिना 01-05-99)।

पी० सी० शर्मा (एम० आर०-4469) ए० एम०
सी०/पी० सी० 01-06-2000 (ज्येष्ठता उनके वेतन
व पेंशन पर प्रभाव डाले बिना 01-03-2000)।

आर० गेहवाल (एम० आर०-3302) ए० एम०
सी०/पी० सी० ---15-04-2000 (ज्येष्ठता उनके वेतन
व पेंशन पर प्रभाव डाले बिना 01-03-2000)।

एम० सी० मोहनवी (एम० आर०-4684) ए० एम०
सी०/पी० सी० ---29-06-2000 (ज्येष्ठता उनके वेतन
व पेंशन पर प्रभाव डाले बिना 30-01-98)।

एम० एम० गजराज (एम० आर०-4461) ए०
एम० सी०/पी० सी० ---14-06-99 (ज्येष्ठता उनके वेतन
व पेंशन पर प्रभाव डाले बिना 01-02-98)।

बी० बी० माहन्ती (एम० आर०-4612) ए० एम०
सी०/पी० सी० ---12-07-99 (ज्येष्ठता उनके वेतन व पेंशन
पर प्रभाव डाले बिना 01-02-98)।

पा० एन० सिंह (एम० आर०-3492) ए० एम०
सी०/पी० सी०-28-06-99 (ज्येष्ठता उनके वेतन व
पेंशन पर प्रभाव डाले बिना 06-02-98)।

पी० मागर (एम० आर०-3620) ए० एम० सी०/
पी० सी०-17-07-99 (ज्येष्ठता उनके वेतन व पेंशन
पर प्रभाव डाले बिना 08-02-98)।

बी० एम० माथुर (एम० आर०-3947) ए० एम०
सी०/पी० सी०-26-06-99 (ज्येष्ठता उनके वेतन व
पेंशन पर प्रभाव डाले बिना 11-02-98)।

एम० सी० गुप्ता (एम० आर०-3622) ए० एम०
सी०/पी० सी०-09-07-99 (ज्येष्ठता उनके वेतन व
पेंशन पर प्रभाव डाले बिना 11-02-98)।

मिस आर० पी० मिह (एम० आर०-4112) ए०
एम० सी०/पी० सी०-29-5-99 (ज्येष्ठता उनके वेतन
व पेंशन पर प्रभाव डाले बिना 11-02-98)।

एस० सी० मोहन्सी (एम० आर०-3724) ए० एम०
सी०/पी० सी०-20-08-99 (ज्येष्ठता उनके वेतन व
पेंशन पर प्रभाव डाले बिना 11-02-98)।

आर० सी० बेहेरा (एम० आर०-3818) ए० एम०
सी०/पी० सी०-25-05-99 (ज्येष्ठता उनके वेतन व
पेंशन पर प्रभाव डाले बिना 01-03-98)।

एच० एस० गिल (एम० आर०-4464) ए० एम०
सी०/पी० सी०-10-08-99 (ज्येष्ठता उनके वेतन व पेंशन
पर प्रभाव डाले बिना 01-06-98)।

एम० चौधरी (एम० आर०-4616) ए० एम०
सी०/पी० सी०-26-07-99 (ज्येष्ठता उनके वेतन
व पेंशन पर प्रभाव डाले बिना 17-06-98)।

के० एम० पंवी (एम० आर०-3767) ए० एम०
सी०/पी० सी०-10-08-98 (ज्येष्ठता उनके वेतन व पेंशन
पर प्रभाव डाले बिना 21-07-98)।

टी० प्रभाकर (एम० आर०-3819) ए० एम०
सी०/पी० सी०-10-07-99 (ज्येष्ठता उनके वेतन
व पेंशन पर प्रभाव डाले बिना 26-09-98)।

आर० एम० चौहान (एम० आर०-4356) ए०
एम० सी०/पी० सी०-16-08-99 (ज्येष्ठता उनके
वेतन व पेंशन पर प्रभाव डाले बिना 08-10-98)।

टी० पी० मधुमुदन (एम० आर०-3042) ए०
एम० सी०/पी० सी०-07-06-99 (ज्येष्ठता उनके वेतन
व पेंशन पर प्रभाव डाले बिना 13-11-98)।

एम० एन० जी० नायर (एम० आर०-3034) ए०
एम० सी०/पी० सी०-24-05-99 (ज्येष्ठता उनके
वेतन व पेंशन पर प्रभाव डाले बिना 01-12-98)।

पी० जे० विसेन्ट (एम० आर०-3047) ए०
एम० सी०/पी० सी०-27-05-99 (ज्येष्ठता उनके वेतन
व पेंशन पर प्रभाव डाले बिना 09-12-98)।

एम० मिह (एम० आर०-3029) ए० एम० सी०/
पी० सी०-27-08-99 (ज्येष्ठता उनके वेतन व पेंशन
पर प्रभाव डाले बिना 10-12-98)।

एम० मुदर्शनन (एम० आर०-3023) ए० एम०
सी०/पी० सी०-29-05-99 (ज्येष्ठता उनके वेतन व
पेंशन पर प्रभाव डाले बिना 22-12-98)।

एच० मिह (एम० आर०-3025) ए० एम० सी०/
पी० सी०-27-05-99 (ज्येष्ठता उनके वेतन व पेंशन
पर प्रभाव डाले बिना 29-12-98)।

ए० सिंह (एम० आर०-3024) ए० एम० सी०/
पी० सी०-10-07-99 (ज्येष्ठता उनके वेतन व पेंशन
पर प्रभाव डाले बिना 01-03-99)।

टी० राजाराम (एम० आर०-3041) ए० एम०
सी०/पी० सी०-27-05-99 (ज्येष्ठता उनके वेतन व
पेंशन पर प्रभाव डाले बिना 01-03-99)।

टी० बी० टोमी (एम० आर०-3652) ए० एम०
सी०/पी० सी०-14-08-1999। (ज्येष्ठता उनके वेतन व
पेंशन पर प्रभाव डाले बिना 22-03-1999)।

एच० एल० काकरिया (एम० आर०-3434) ए०
एम० सी०/पी० सी०-15-06-1999। (ज्येष्ठता उनके
वेतन व पेंशन पर प्रभाव डाले बिना 22-03-99)।

टी० स्मानला (एम० आर०-3653) ए० एम० सी०/
पी० सी०-30-06-2000। (ज्येष्ठता उनके वेतन व पेंशन
पर प्रभाव डाले बिना 05-04-99)।

एम० आर० बैनूर (एम० आर०-3746) ए० एम०
सी०/पी० सी०-8-5-2000। (ज्येष्ठता उनके वेतन व
पेंशन पर प्रभाव डाले बिना 12-04-99)।

सी० एम० आध्या (एम० आर०-3562) ए० एम०
सी०/पी० सी०-28-06-1999। (ज्येष्ठता उनके वेतन व
पेंशन पर प्रभाव डाले बिना 12-04-99)।

बी० एम० राठौर (एम० आर०-3435) ए० एम०
सी०/पी० सी०-30-06-1999। (ज्येष्ठता उनके वेतन व
पेंशन पर प्रभाव डाले बिना 12-04-99)।

सी० मिह (एम० आर०-3436) ए० एम० सी०/
पी० सी०-30-06-1999। (ज्येष्ठता उनके वेतन व
पेंशन पर प्रभाव डाले बिना 15-04-99)।

ए० एम० बैथ (एम० आर०-3440) ए० एम०
सी०/पी० सी०-02-07-1999। (ज्येष्ठता उनके वेतन
व पेंशन पर प्रभाव डाले बिना 17-04-99)।

क० पी० आनन्द (एम० आर०-3495) ए० एम०
सी०/पी० सी०-07-07-99। (ज्येष्ठता उनके वेतन व
पेंशन पर प्रभाव डाले बिना 17-04-99)।

जेड० मिह (एम० आर०-3658) ए० एम० सी०/
पी० सी०-29-06-1999। (ज्येष्ठता उनके वेतन व
पेंशन पर प्रभाव डाले बिना 29-01-99)।

वी० के० कोटे (एम० आर०-3748) ए० एम० सी०/पी० सी०-25-08-1999। (ज्येष्ठता उनके वेतन व पेन्शन पर प्रभाव डाले बिना 01-05-99)

जी० एस० गुगलानी (एम० आर०-3822) ए० एम० सी०/पी० सी०-04-06-2000। (ज्येष्ठता उनके वेतन व पेन्शन पर प्रभाव डाले बिना 01-05-99)।

एम० के० बीरमनी (एम० आर०-3563) ए० एम० सी०/पी० सी०-20-07-1999। (ज्येष्ठता उनके वेतन व पेन्शन पर प्रभाव डाले बिना 01-05-99)।

के० के० गुप्ता (एम० आर०-3749) ए० एम० सी०/पी० सी०-17-06-2000। (ज्येष्ठता उनके वेतन व पेन्शन पर प्रभाव डाले बिना 01-05-99)।

टी० के० देव (एम० आर०-3416) ए० एम० सी०/पी० सी०-02-06-2000। (ज्येष्ठता उनके वेतन व पेन्शन पर प्रभाव डाले बिना 01-05-99)।

श्री० एस० मण्ड (एम० आर०-3499) ए० एम० सी०/पी० सी०-03-06-2000। (ज्येष्ठता उनके वेतन व पेन्शन पर प्रभाव डाले बिना 01-05-99)।

के० माह (एम० आर०-3439) ए० एम० सी०/पी० सी०-03-07-99। (ज्येष्ठता उनके वेतन व पेन्शन पर प्रभाव डाले बिना 01-05-99)।

यू० के० विश्वरा (एम० आर०-3179) ए० एम० सी०/पी० सी०-3-10-2000। (ज्येष्ठता उनके वेतन व पेन्शन पर प्रभाव डाले बिना 01-05-99)।

के० एम० बीमशान (एम० आर०-3178) ए० एम० सी०/पी० सी०-01-06-2000। (ज्येष्ठता उनके वेतन व पेन्शन पर प्रभाव डाले बिना 01-05-99)।

के० जे० सिंह (एम० आर०-3189) ए० एम० सी०/पी० सी०-10-7-2000। (ज्येष्ठता उनके वेतन व पेन्शन पर प्रभाव डाले बिना 01-05-99)।

वी० बी० डोगरा (एम० आर०-3660) ए० एम० सी०/पी० सी०-28-6-1999। (ज्येष्ठता उनके वेतन व पेन्शन पर प्रभाव डाले बिना 01-05-99)।

बी पत्त (एम० आर०-3754) ए० एम० सी०/पी० सी०-05-06-2000। (ज्येष्ठता उनके वेतन व पेन्शन पर प्रभाव डाले बिना 01-05-99)।

वी० आर० देशपाण्डे (एम० आर०-3726) ए० एम० सी०/पी० सी०-18-09-1999। (ज्येष्ठता उनके वेतन व पेन्शन पर प्रभाव डाले बिना 01-05-99)।

डी० गांगुली (एम० आर०-3247) ए० एम० सी०/पी० सी०-0-09-1999। (ज्येष्ठता उनके वेतन व पेन्शन पर प्रभाव डाले बिना 01-05-99)।

आर० मोहन चन्द (एम० आर०-3245) ए० एम० सी०/पी० सी०-15-10-1999। (ज्येष्ठता उनके वेतन व पेन्शन पर प्रभाव डाले बिना 01-05-99)।

बी० के० मिह (एम० आर०-3240) ए० एम० सी०/पी० सी०-07-10-99। (ज्येष्ठता उनके वेतन व पेन्शन पर प्रभाव डाले बिना 01-05-99)।

एस सिंह (एम० आर०-3241) ए० एम० सी०/पी० सी०-01-06-2000। (ज्येष्ठता उनके वेतन व पेन्शन पर प्रभाव डाले बिना 22-08-99)।

ए० के० भार्गव (एम० आर०-3228) ए० एम० सी०/पी० सी०-12-01-2000। (ज्येष्ठता उनके वेतन व पेन्शन पर प्रभाव डाले बिना 22-08-99)।

एस० के० बासु (एम० आर०-3662) ए० एम० सी०/पी० सी०-19-3-2000। (ज्येष्ठता उनके वेतन व पेन्शन पर प्रभाव डाले बिना 29-08-99)।

एल० एस० राठीर (एम० आर०-3417) ए० एम० सी०/पी० सी०-19-7-2000। (ज्येष्ठता उनके वेतन व पेन्शन पर प्रभाव डाले बिना 29-08-99)।

एन० रे० चौधरी (एम० आर०-3419) ए० एम० सी०/पी० सी०-11-02-2000। (ज्येष्ठता उनके वेतन व पेन्शन पर प्रभाव डाले बिना 29-08-99)।

ए० देवसैनापति (एम० आर०-4690) ए० एम० सी०/पी० सी०-01-06-2000। (ज्येष्ठता उनके वेतन व पेन्शन पर प्रभाव डाले बिना 01-03-2000)।

के० सिंह (एम० आर०-3298) ए० एम० सी०/पी० सी०-13-06-2000 (ज्येष्ठता उनके वेतन व पेन्शन पर प्रभाव डाले बिना-29-04-2000)।

पी० कृष्णमूर्ती (एम० आर०-3290) ए० एम० सी०/पी० सी०-01-06-2000। (ज्येष्ठता उनके वेतन व पेन्शन पर प्रभाव डाले बिना 29-04-2000)।

ए० के० मुकर्जी (एम० आर०-3367) ए० एम० सी०/पी० सी०-04-05-2000। (ज्येष्ठता उनके वेतन व पेन्शन पर प्रभाव डाले बिना-29-04-2000)।

एस० के० पुरी
ब्रिगेडियर
सहायनियदेशक (कार्मिक)

वायु शाखा

सं० 96, दिनांक 24 जनवरी, 2001-भारत के राष्ट्रपति, सहृदय, निम्नलिखित मूल पदोन्नतियां करते हैं :-

भारतीय वायुसेना

उड़ान शाखा

एयर मार्शल के मूल रैंक में

टी० एम० अस्थाना, ए० वी० एस० एस० वी० एम० (7672) उ० (प०)-01-08-2000।

उषा नीलकण्ठ
सहा० निदेशक कार्मिक अधिकारी 2ए

धल सेना विभाग

सं० 97, दिनांक 22 जनवरी, 2001—राष्ट्रपति निम्नलिखित अधिकारियों/अधिकारी को अधिवर्षिता आयु ग्रहण करने पर सेना से निवृत्त होने की अनुमति प्रदान करते हैं (बढ़ी हुई अवधि समेत)।

नियमित सेना

स्थाई आयोग

ले० जनरल एम० पी० दत्ता (एम० आर०-01815एन),
ए०एम०सी०/पी०सी०,—31-5-2000 (अपराह्न)।

ले० जनरल बी० बी० दत्ता (एम० आर०-02080डी)
ए०एम०सी०/पी०सी०—31-5-2000 (अपराह्न)।

ले० जनरल एम० सी० वर्मा (एम० आर०-024824
वाई) ए०एम०सी०/पी०सी०—31-5-2000 (अपराह्न)।

ब्रिगेडियर के० एम० राव (एम० आर०-01873-एक्स),
ए०एम०सी०/पी०सी०—31-5-2000 (अपराह्न)।

ब्रिगेडियर पी० के० सरकार (एम० आर०-02085-ए),
ए०एम०सी०/पी०सी०—31-5-2000।

ब्रिगेडियर जी० सी० हजार्कि (एम० आर०-02261-एम),
ए०एम०सी०/पी०सी०—31-5-2000 (अपराह्न)।

ब्रिगेडियर ए० के० हुक्का (एम० आर०-02340-एक्स),
ए०एम०सी०/पी०सी०—31-5-2000 (अपराह्न)।

मेजर जन० ए० बी०बी० राव, (एम० आर०-2297),
ए०एम०सी०/पी०सी०, 31 मई, 2000 (अपराह्न)।

ब्रिगेडियर एच० एस० मन्धू (एम० आर०-1989),
ए०एम०सी०/पी०सी०, 31 मई 2000 (अपराह्न)।

कर्नल एस० के० भन्ड (एम० आर०-2538) ए०एम०सी०/
पी०सी०,—31 मई, 2000 (अपराह्न)।

कर्नल आर० के० रोय (एम० आर०-2510) ए०एम०सी०/
पी०सी०, 31 मई, 2000 (अपराह्न)।

ले० कर्नल डी० के० घोष (एम० आर०-3150) ए०एम०
सी०/पी०सी०, 31 मई, 2000 (अपराह्न)।

राष्ट्रपति निम्नलिखित अधिकारियों/अधिकारी को अधिवर्षिता आयु ग्रहण करने पर सेना से निवृत्त होने की अनुमति प्रदान करते हैं :—

नियमित सेना

स्थायी कमीशन

ले० जनरल आर० आर०सवाल, (एम० आर०-1515 एम),
ए०एम०सी०/पी०सी०, 31 अगस्त, 2000 (अपराह्न)।

ब्रिगेडियर आर० पी० अग्रवाल (एम० आर०-2365 एन)

ए०एम०सी०/पी०सी०, 31 अगस्त, 2000 (अपराह्न)।

कर्नल सी० एस० रावत (एम० आर०-2231 पी) ए०एम०
सी०/पी०सी० 31 अगस्त, 2000 (अपराह्न)।

सेना शाखा

राष्ट्रपति निम्नलिखित अधिकारियों/अधिकारी को अधिवर्षिता आयु ग्रहण करने पर सेना से निवृत्त होने की अनुमति प्रदान करते हैं :—

नियमित सेना

स्थायी कमीशन

ब्रिगे० बी- सी० रेय (एम० आर०-2339), ए०एम०सी०/
पी०सी०—31-06-2000 (अपराह्न)।

ब्रिगे० आर० सी० डे भाटे (एम० आर०-1928),
ए०एम०सी०/पी०सी०—31-05-2000 (अपराह्न)।

ब्रिगे० एच० पी० यादव (एम० आर०-2408) ए०एम०सी०/
पी०सी०—31-07-2000 (अपराह्न)।

ब्रिगे० जे० एम० साइनी, बी० एम० एम० (एम० आर०-
2097) ए०एम०सी०/पी०सी०—31-07-2000 (अपराह्न)

कर्नल एम० सी० भट्टाचार्य (एम० आर०-2447),
ए०एम०सी०/पी०सी०—31-07-2000 (अपराह्न),

ले० कर्नल एस० सी० बैद्य (एम० आर०-16320),
ए०एम०सी०/पी०सी०—31-07-2000 (अपराह्न)।

ले० कर्नल पी० के० उपाध्याय (एम० आर०-3155),
ए०एम०सी०/पी०सी०—31-07-2000 (अपराह्न)।

नीरज खोहरा

ले० कर्नल

संयुक्त निदेशक स० से० जे० मे० (कार्मिक)

सर्ज० रीयर ऐडमिरल बी० के० पाहुवा (75626) (एम०
आर०-01656) मिड पी०सी०, 31 मई, 2000 (अपराह्न)।

सर्ज० कमान्डर एम० डी० मिश्रा (75270) (एम० आर०-
04443) मिड पी०सी०, 31 मई, 2000 (अपराह्न)।

जे० आर० भारद्वाज

मेजर जनरल

अपर महानिदेशक

MINISTRY OF DEFENCE

ARMY BRANCH

New Delhi the 24th February 2001

No. 89, dated 25th January 2001—The President is pleased to make the following appointment under AI 74/76, as amended —

REGULAR ARMY

PERMANENT COMMISSION

To be Surg Sub Lt (On Prob)

(Km) Megha Singhal, MBBS (MR-07427M) (75719 N) AMC, 11 Mar 2000

Sudhir Kumar Joshi MBBS (MR 07112K) (75718-K) AMC, 11 March 2000

Bal Mukund, MBBS (MR-07397A) (75717H), AMC, 11 March, 2000

S K PURI, Brigadier
Dy DGAFMS (P)

No 90 dated 25th January 2001—The President is pleased to make the following appointment under AI 15/79 as amended —

REGULAR ARMY

ARMY DENIAL CORPS

(SHORT SERVICE COMMISSION)

To be Lieut (On Probation)

Miss Bani Kuptu, BDS (Kuvempu) (DS 12011Y)—16-3 2000 with seniority for pay and promotion from 16-9 99 (includes six months ante date for paid House Assignment which will not count for gratuity)

Ministry of Defence Gazette Notification published in the Gazette of India dated 23 9 2000 in so far as it pertains to the Officer is hereby cancelled

R K SEIHI, Brigadier
Dy DGDS

(ARMY BRANCH)

No 91 dated 23rd January 2001—The President is pleased to make the following promotions —

REGULAR ARMY

INFANTRY

The Garhwal Rifles

To be Nb Sub Maj

Sub Kundan Singh (JC 164610N) 1st July 2000

Sub Shishupal Singh Khatri (JC-218501M), 1st July 2000

Sub Manendra Singh (JC 173245N), 1st Aug 2000

Sub Vinendra Singh SM (JC-173224X) 1st Aug 2000.

Sub Surendra Singh Kanwasi (JC 173887H), 1st Aug 2000

Sub Shyam Singh (JC-16609/L), 1st Sep 2000

To be Sub Maj (Clk)

Sub (Clk) Bhajan Singh Rawat (JC-205213F) 1st Oct 2000.

To be Sub

Nb Sub Narain Singh (JC-225854P), 1st Sep 1999

Nb Sub Sitya Prakash (JC 468247N) 1st Sep 1999

Nb Sub Darwan Singh (JC 558422X), 1st Dec 1999

Nb Sub Dev Ram (JC-528188Y) 1st Mar 2000

Nb Sub Gajpal Singh (JC-5282/6P) 1st Mar 2000

Nb Sub Kuldip Kumar (JC 528403Y) 1st Mar 2000

Nb Sub Digamber Singh Negi (JC 523406M) 1st Mar 2000

Nb Sub Jodh Singh (JC 488352L) 1st Mar 2000

Nb Sub Pan Singh (JC-528456P), 1st Mar 2000

To be Sub (Clk)

Nb Sub (Clk) Mohd Ishaq Khan (JC-528360P) 1st Apr 2000

Nb Sub (Clk) Padam Singh (JC 528351N) 1st Apr 2000

8 GR

To be Sub

Nb Sub Bm Prasad Gurung (JC-623183I) 1st Jan 2000

Nb Sub Lek Bahadur Thapa (JC-623205Y), 1st Jan 2000

Nb Sub Man Bahadur Thapa (JC-623175M) 1st Jan 2000

Nb Sub Chandu Bahadur Roka (JC 623177Y) 1st Jan 2000

Nb Sub Kul Bahadur Gurung (JC-623209P) 1st Feb 2000

Nb Sub Anand Kumar Gurung (JC-623206F) 1st Feb 2000

Nb Sub Pradeep Kumar Khatri (JC 623207K) 1st May 2000

Nb Sub Durga Ram Gurung (JC 623200A) 1st May 2000

Nb Sub Clk Ram Dhyani Yadav (JC 623128P) 1st Jul 2000

Nb Sub/Clk Purnam Rai (JC 623130M) 1st Aug 2000

5 GR (FF)

To be Sub

Nb Sub Indra Bahadur Thapa (JC 617197P), 1st Jan 2000

Nb Sub Suraj Bahadur Gurung (JC 617198X), 1st Jan 2000

Nb Sub Indra Bahadur Rana (JC 617203X), 1st Jan 2000

Nb Sub Ritesh Kumar Bhandari (JC-617201A), 1st Jan 2000

Nb Sub Dharma Singh Gurung (JC-617214K) 1st Jan 2000

Nb Sub Jit Bahadur Khawas (JC-617215M), 1st Feb 2000

Nb Sub Hom Bahadur Thapa (JC-617259K), 1st Feb 2000

Nb Sub Uden Kumar Gurung (JC-617260Y), 1st May 2000

Nb Sub Purn Bahadur Pun (JC-617202P) 20th Jul 2000

Nb Sub Dhan Bahadur Thapa (JC 617261F) 1st Aug 2000

The Jat Regt

To be Sub

Nb Sub Ram Niwas (JC-488233P), 1st Jan 2000.
 Nb Sub Ram Niwas Bijarnia (JC-488282X), 1st Jan 2000.
 Nb Sub Sallat Ram Jat (JC-488378A), 1st Jan 2000.
 Nb Sub Gopal Singh (JC-488444X), 1st Jan 2000.
 Nb Sub Durjan Singh (JC-488327M), 1st Jan 2000.
 Nb Sub Banwari Lal (JC-488333A), 1st Jan 2000.
 Nb Sub Ram Singh (JC-488466W), 1st Jan 2000.
 Nb Sub Udaibir Singh (JC-488197P), 1st Jan 2000.
 Nb Sub Ram Gopal Jat (JC-488021K), 1st Jan 2000.
 Nb Sub Ram Phal (JC-488304L), 1st Jan 2000.
 Nb Sub Gordhan Ram (JC-488326K), 1st Jan 2000.
 Nb Sub Sultan Singh Bbaskar (JC-488335L), 1st Jan 2000.
 Nb Sub Jaimal Singh Chahal (JC-488287W), 1st Jan 2000.
 Nb Sub Daya Ram (JC-488354W), 1st Jan 2000.
 Nb Sub Balwan Singh (JC-488357K), 1st Jan 2000.
 Nb Sub Raj Pal (JC-488085P), 1st Jan 2000.
 Nb Sub Amir Singh Sheoran (JC-488173L), 1st Jan 2000.
 Nb Sub Babu Singh (JC-488328P), 1st Jan 2000.
 Nb Sub Vijay Singh (JC-488348H), 1st Jan 2000.
 Nb Sub Jai Parkash Singh (JC-488086X), 1st Jan 2000.
 Nb Sub Om Parkash (JC-488102K), 1st Jan 2000.
 Nb Sub Rohitashow Jat (JC-488216P), 1st Jan 2000.
 Nb Sub Gran Singh (JC-488217X), 1st Jan 2000.
 Nb Sub Divan Singh (JC-488349L), 1st Jan 2000.
 Nb Sub Ishwar Singh (JC-488347A), 1st Jan 2000.
 Nb Sub Balbir Singh Pahal (JC-488125L), 1st Jan 2000.
 Nb Sub Chhotu Ram Puma (JC-488128Y), 1st Jan 2000.
 Nb Sub Mohan Lal (JC-488129F), 1st Jan 2000.
 Nb Sub Sher Singh Jat (JC-488218A), 1st Jan 2000.
 Nb Sub Dilbag Singh (JC-488231K), 1st Jan 2000.
 Nb Sub Dharamvir Singh (JC-488260Y), 1st Jan 2000.
 Nb Sub Ram Karan Singh Chahar (JC-488288Y), 1st Jan 2000.
 Nb Sub Dharam Pal (JC-488393P), 1st Jan 2000.
 Nb Sub Gurdayal Singh (JC-488262K), 1st Jan 2000.

To be Sub/Clk

Nb Sub/Clk Ram Kishan Suhag (JC-488247P), 1st Apr 2000.
 Nb Sub/Clk Bakshish Singh Guleria (JC-488245K), 1st Apr 2000.
 Nb Sub Clk Virendra Pal Singh (JC-488273W), 1st Apr 2000.
 Nb Sub/Clk Ram Kanwar (JC-488311F), 1st Apr 2000.
 Nb Sub/Clk Navin Chandra Bisht (JC-488312K), 1st Apr 2000.

Nb Sub/Clk Bhagwan Singh (JC-488340W), 1st Apr 2000.

Nb Sub/Clk Rajinder Kumar Upadhyai (JC-488370N), 1st Apr 2000.

Nb Sub/Clk Sham Sher Singh Greer (JC-488353N), 1st Apr 2000.

Nb Sub/Clk Radhey Shyam Satija (JC-488381A), 1st Apr 2000.

Nb Sub/Clk Mahipal Singh (JC-488389M), 1st Sep 2000.

Nb Sub/Clk Manbir Singh (JC-488391K), 1st Sep 2000.

Nb Sub/Clk Pema Ram Mahla (JC-488407K), 1st Nov 2000.

THE GRENADIERS

To be Subedar Major

Sub Hari Kishore (JC-164027N), 4th Jan 2000.

Sub Sham Sher Ali (JC-178495Y), 1st Apr 2000.

Sub Nizamuddin (JC-188627P), 2nd Apr 2000.

Sub Seni Dan (JC-122246N), 1st Jun 2000.

Sub Karan Singh (JC-178213P), 1st Jun 2000.

Sub Fauran Singh (JC-192905P), 1st Jun 2000.

Sub Amar Singh Meena (JC-219670A), 1st Jun 2000.

To be Subedar

Nb Sub Dharamjit Singh, SM (JC-448321P), 1st Sep 1999.

Nb Sub Abdul Hamid (JC-448270A), 1st Sep 1999.

Nb Sub Laxmi Chand (JC-448318H), 1st Sep 1999.

Nb Sub Avtar Singh (JC-448381X), 1st Sep 1999.

Nb Sub Ram Niwas Yadav (JC-448413P), 1st Sep 1999.

Nb Sub Umed Singh Kulhar (JC-448753X), 1st Sep 1999.

Nb Sub Roop Raj Singh (JC-448105P), 1st Sep 1999.

Nb Sub Shamsher Singh Sangwan (JC-448377P), 1st Oct 1999.

Nb Sub Jogendra Pal Singh (JC-448406Y), 1st Oct 1999.

Nb Sub Rampal Singh (JC-448468Y), 1st Oct 1999.

Nb Sub Bijendra Singh (JC-448516N), 1st Oct 1999.

Nb Sub Sham Murari (JC-448520W), 1st Oct 1999.

Nb Sub Kuldeep Singh (JC-448531H), 1st Oct 1999.

Nb Sub Dalbir Singh (JC-448532L), 1st Oct 1999.

Nb Sub Hira Ram (JC-448574X), 1st Oct 1999.

Nb Sub Onkar Singh (JC-448583Y), 1st Oct 1999.

Nb Sub Kana Ram (JC-448599K), 1st Oct 1999.

Nb Sub Darab Khan (JC-448434L), 5th Oct 1999.

Nb Sub Jagdish Prasad Gurjar (JC-448448L), 1st Dec 1999.

Nb Sub Mahabir Singh (JC-448419W), 1st Jan 2000.

Nb Sub Ramesh Chand Verma (JC-448539P), 1st Mar 2000.

Nb Sub Suresh Kumar Thakur (JC-448623P), 1st Mar 2000.

Nb Sub Dharambir (JC-448701F), 1st Mar 2000.

Nb Sub Azad Singh Rathee (JC-448521Y), 25th Mar 2000

Nb Sub Raghubir Singh (JC-448214F), 1st Apr 2000.

Nb Sub Kamal Jakhu Bhai Mulji (JC-448489P), 1st Apr 2000.

Nb Sub Hariom Singh (JC-488616Y), 1st Apr 2000.

Nb Sub Ram Kishan (JC-448620F), 1st Apr 2000.

Nb Sub Puran Chand Bhardwaj (JC-448655X), 1st Apr 2000.

Nb Sub Moti Lal (JC-448538M), 18th Apr 2000.

Nb Sub Mohan Singh (JC-448272L), 1st May 2000.

Nb Sub Mahender Singh Rathore (JC-448505F), 30th May 2000.

Nb Sub Irshad Mohammad (JC-448319L), 1st Aug 2000.

Nb Sub Tulsī Ram (JC-448652K), 1st Aug 2000.

To be Subedar (Clerk)

Nb Sub (Ck) Dharam Pal Punia (JC-448359M), 1st Apr 2000.

Nb Sub (Ck) Udaibir Singh Bais (JC-448374F), 1st Aug 2000.

THE BIHAR REGIMENT

To be Subedar (GD)

Naib Subedar Bulu Ram Seth (JC-558070P), 1st April 1999.

Naib Subedar Munshi Hembrom (JC-558198X), 26th April 1999.

Naib Subedar Madan Sharma (JC-211827A), 1st August 1999.

Naib Subedar Gopal Goswami (JC-558368W), 1st September 1999.

Naib Subedar Subash Mishra (JC-558374K), 13th September 1999.

Naib Subedar Brij Kishore Singh (JC-558377X), 7th December 1999.

Naib Subedar Sohan Lal Nai (JC-558113W), 7th December 1999.

Naib Subedar Dhir Bahadur Singh (JC-558378A), 7th December 1999.

Naib Subedar Abinas Tirkey (JC-558259K), 7th December 1999.

Naib Subedar Rajaram Hembrom (JC-558331P), 7th December 1999.

Naib Subedar Dwijendra Mishra (JC-558379H), 7th December 1999.

Naib Subedar Raj Kishore Sahoo (JC-558360K), 7th December 1999.

Naib Subedar Dukha Bandhu Garanaik (JC-558357K), 7th December 1999.

Naib Subedar Pati Oraon (JC-558342F), 7th December 1999.

Naib Subedar Birendra Singh (JC-558380X), 1st March 2000.

Naib Subedar Kameshwar Rai (JC-558381A), 1st March 2000.

Naib Subedar Anirudh Singh Yadav (JC-558156L), 1st January 1999.

Naib Subedar Birendra Kumar Singh (JC-558180F), 1st April 1999.

Naib Subedar Vidyadhar Rai (JC-558191N), 1st April 1999.

Naib Subedar Jolen Purty (JC-558060H), 1st May 1999.

Naib Subedar Narendra Singh (JC-558417N), 1st May 1999.

Naib Subedar Nand Kishor Singh (JC-225334K), 1st June 1999.

Naib Subedar Mahendra Prasad Singh (JC-558418W), 1st July 1999.

Naib Subedar Raghunath Mahto (JC-558178K), 1st August 1999.

Naib Subedar Brij Kishor Singh (JC-558501N), 1st September 1999.

Naib Subedar Mukul Tripathi (JC-558508X), 7th December 1999.

Naib Subedar Pashupati Singh Yadav (JC-558507P), 7th December 1999.

Naib Subedar Shiv Prasad Yadav (JC-558532N), 7th December 1999.

Naib Subedar Bal Mukand Sharma (JC-558548Y), 7th December 1999.

Naib Subedar Tutam Purty (JC-558299L), 10th January 2000.

THE MARATHA LI

To be Sub Maj

Sub Laxman Gangaram Dabekar (JC-167423P), 1st May 2000.

Sub Devappa Babao Birajdar (JC-166689P), 1st May 2000.

Sub Kawade Dilip Dattarao (JC-172733K), 2nd July 2000.*

*(Granted dry seniority in the rank of Sub Maj with effect from 1st July 2000).

Sub Thombare Dnyanoba Ramrao (JC-155100A), 6th Sep 2000.*

*(Granted dry seniority in the rank of Sub Maj with effect from 1st Aug 2000).

Sub Pundlik Kachu Tarhalkar (JC-162131H), 1st Aug 2000.

Sub Bhosle Sidaram Bapu (JC-179318L), 1st Aug 2000.

Sub Hari Anaram Bannote (JC-168607A), 1st Oct 2000.

Sub Hingmbe Ramling (JC-167422M), 13th Oct 2000.*

*(Granted dry seniority in the rank of Sub Maj with effect from 1st Oct 2000.)

Sub Mukhtiar Singh (JC-182960X), 1st Oct 2000.

To be Sub Maj Ck

Sub Ck Babu Patil (JC-188369A), 1st May 2000.

To be Sub

Nb Sub Chandrakant Tukaram Dehmukh (JC-458048M), 1st May 2000.

Nb Sub Thorat Bijli o Anna (JC-458125W), 1st May 2000.

Nb Sub Kale Rajaram Dattu (JC-458239F), 1st May 2000.

Nb Sub Nivale Anant Daji (JC-458024H), 1st May 2000.

Nb Sub Dongare Machindra Sopan (JC-458126Y), 1st May 2000.

Nb Sub Manikrao Jagannath Kudam (JC-458089W), 1st May 2000.

Nb Sub Laxman Shivappa Umiani (JC-458140I), 1st May 2000.

Nb Sub Tidke Ramchandia Venkatrao (JC-458094F), 1st May 2000.

Nb Sub Shinde Dnyandeo Vithal (JC-458097P), 1st May 2000.

Nb Sub Gan Chand (JC-458109Y), 1st May 2000.

Nb Sub V Biligan (JC-458121A), 1st May 2000.

Nb Sub Basappa Malali (JC-458122H), 1st May 2000.

Nb Sub Chavan Hari Sakhoba (JC-458123I), 1st May 2000.

Nb Sub Salunkhe Vijay Nathu (JC-458127F), 1st May 2000.

Nb Sub Ghansham Raghunath Shedge (JC-458139W), 1st May 2000.

Nb Sub Madhukar Ramji Mane (JC-458204L), 1st May 2000.

Nb Sub Gore Mohan Keshav (JC-458188Y), 1st May 2000.

Nb Sub Kallappa Patil (JC-458192I), 1st May 2000.

Nb Sub Narayan Kashid (JC-458246X), 1st May 2000.

Nb Sub Lavate Shivaji Kakasaheb (JC-458258M), 1st May 2000.

Nb Sub Desai Anil Gupatrao (JC-458241Y), 1st May 2000.

Nb Sub Nalwade Hanumant Haribhau (JC-458257K), 1st May 2000.

Nb Sub Tanaji Vishwas Patil (JC-458260K), 1st May 2000.

Nb Sub Gawas Vithal Jagannath (JC-458267N), 1st June 2000.^a

^a (Granted dry seniority in the rank of Sub with effect from 1st May 2000.)

Nb Sub Jayram Nathuram Dhanawade (JC-458303N), 1st May 2000.

Nb Sub Kumaar Vajinath Bhaumu Bachulkar (JC-458305Y), 1st May 2000.

Nb Sub Munna Prasad Jaiswal (JC-458225F), 1st May 2000.

Nb Sub Kunakekar Keraba Bhau (JC-458202A), 1st May 2000.

Nb Sub Narayan Ravaji Patil (JC-458230M), 1st May 2000.

Nb Sub Hanumant Devichand Katke (JC-458232X), 1st May 2000.

Nb Sub Gaikwad Chandrao Genubhau (JC-458294X), 1st May 2000.

Nb Sub Vilas Pandurang Kadam (JC-458314A), 1st May 2000.

Nb Sub Deshpande Chandrakant Kuntao (JC-458272Y), 1st May 2000.

Nb Sub Vithal Shyam Padloskar (JC-458295A), 1st May 2000.

Nb Sub S Syed Abdul Alees (JC-458325M), 1st May 2000.

Nb Sub Manoj Vijay Baburam (JC-458251H), 1st May 2000.

Nb Sub Parashram Patil (JC-458296J), 1st May 2000.

Nb Sub Shaikh Mahboob Basha (JC-458330X), 1st May 2000.

Nb Sub Paddare Prakash Shankarrao (JC-458228P), 1st May 2000.

Nb Sub Devidas Maruti Kalbure (JC-458329H), 1st May 2000.

Nb Sub Gawade Suresh Yadaoraaji (JC-458141N), 1st May 2000.

Nb Sub Balkrishna Vishram Rawool (JC-458154L), 1st May 2000.

Nb Sub Gaywale Haridas Sadashiv (JC-458240W), 1st May 2000.

Nb Sub Bhosale Himmat Keshav (JC-458331A), 1st May 2000.

Nb Sub Nawale Arjun Eknath (JC-458265H), 1st May 2000.

Nb Sub Salunkhe Jijaba Rangu (JC-458291K), 1st May 2000.

Nb Sub Bhosle Kashinath Shankar (JC-412067Y), 1st May 2000.

Nb Sub Jadhav Ashok Abaji (JC-458266I), 1st May 2000.

Nb Sub Jagtap Dattatray Dnyandeo (JC-458311M), 1st May 2000.

Nb Sub Kishor Kumar Itapi (JC-458334N), 1st May 2000.

Nb Sub Dhumal Baban Pandurang (JC-488392M), 1st May 2000.

Nb Sub Dattatray Narayan Shitole (JC-458132M), 1st May 2000.

Nb Sub Ramesh Maruti Nirwan (JC-458190W), 1st May 2000.

Nb Sub Suresh AJ (JC-458242F), 1st May 2000.

Nb Sub Mahammad FhajaJallah (JC-458347L), 1st May 2000.

Nb Sub Shinde Vikas Govind (JC-458066P), 1st May 2000.

Nb Sub Tawar Dilip Kundlik (JC-458098X), 1st May 2000.

Nb Sub Mokashi Sardarsahib Allu Saheb (JC-458261M), 1st May 2000.

Nb Sub Sukhdeo Maruti Lendwe (JC-458342M), 1st May 2000.

Nb Sub Khot Hindurao Ganapati (JC-458333I), 1st May 2000.

Nb Sub Patil Namdeo Pandurang (JC-458102P), 1st May 2000.

Nb Sub Gharge Jayasingrao Amritrao (JC-458196X), 1st May 2000.

Nb Sub Prakash Vithal Pawar (JC-458278A), 1st May 2000.

Nb Sub Sampatkumar HC (JC-458354I), 1st May 2000.

Nb Sub Fakira Navjeeekar (JC-458077F), 1st May 2000.

Nb Sub Dhillay Shamrao Vadiv (JC-458183A), 1st May 2000.

Nb Sub Parashram Sambhaji Chougule (JC-458181P), 1st May 2000.

Nb Sub Shelke Prakash Narayan (JC-458250A), 1st May 2000.

Nb Sub Jadhav Vithoba Bapu (JC-458315H), 1st May 2000.

Nb Sub Eshman Anna Bhintade (JC-458404F), 1st May 2000.

Nb Sub Patil Tukaram Dnyanu (JC-458366W), 1st May 2000.

Nb Sub Sul Mahadeo Nivruti (JC-458499M), 1st May 2000.

Nb Sub Baban Gangadhar Pole (JC-458368F), 1st May 2000.

Nb Sub Rajeshirke Jairam Shankarrao (JC-458418F), 1st May 2000.

Nb Sub Bel Pandit Sakharan (JC-458420Y), 1st May 2000.

Nb Sub Patil Mohan Pandurang (JC-458443A), 12th May 2000.*

*(Granted dry seniority in the rank of Sub with effect from 1st May 2000).

Nb Sub Pandurang Vithu Chougule (JC-458158F), 1st May 2000.

Nb Sub Gangaram Abasaheb Kale (JC-458264A), 1st May 2000.

Nb Sub Rajaram Baburao Patil (JC-458197A), 1st May 2000.

Nb Sub Laxman Sakharan Maut (JC-458248H), 1st May 2000.

Nb Sub Chalke Pradeepkumar Doulat (JC-458271W), 1st May 2000.

Nb Sub Garudkar Raosaheb Nathu (JC-458316L), 1st May 2000.

Nb Sub Gavhane Shrimant Mahadeo (JC-458301H), 1st May 2000.

Nb Sub Rudrani Baswan Navalg (JC-458302L), 1st May 2000.

Nb Sub Sitaram Bapu Patil (JC-458312P), 1st May 2000.

Nb Sub Bhosale Ashok Anandrao (JC-458332H), 1st May 2000.

Nb Sub Sharad Marotrao Wankhede (JC-458292M), 1st May 2000.

Nb Sub Gaikwad Mansing Waman (JC-458324K), 1st May 2000.

Nb Sub Sadashiv Atmaram Kamate (JC-458327X), 23rd May 2000.*

*(Granted dry seniority in the rank of Sub with effect from 1st May 2000).

Nb Sub Ghevade Sadashiv Maruti (JC-48444H), 1st May 2000.

Nb Sub Appaso Pandu Nikam (JC-458143Y), 1st May 2000.

Nb Sub Bhimappa Badiger (JC-220716K), 1st May 2000.

Nb Sub Bhagwan Ramchandra Suryawanshi (JC-458135A), 1st May 2000.

Nb Sub Maruti Laxman More (JC-458209K), 1st May 2000.

Nb Sub Jadhav Swami Gopinath (JC-458177M), 1st May 2000.

Nb Sub Tanaji Dnyandeo Mokashi (JC-458214P), 1st May 2000.

Nb Sub Mane Uttam Bapuso (JC-458259P), 1st May 2000.

Nb Sub Yadav Pandurang Arjun (JC-458249L), 1st May 2000.

Nb Sub Babaso Shidu Khot (JC-458269Y), 1st May 2000.

Nb Sub Khute Tukaram Sakharan (JC-458308M), 1st May 2000.

Nb Sub Shelke Tukaram Aban (JC-458335W), 1st May 2000.

Nb Sub Patne Namdeo Rambhau (JC-458336Y), 1st May 2000.

Nb Sub Manohar Patil (JC-458326P), 1st May 2000.

Nb Sub Kale Balu Dattu (JC-458338K), 1st May 2000.

Nb Sub Nagendra Bhavana Lande (JC-458339M), 1st May 2000.

Nb Sub Gopala NA (JC-458340F), 1st May 2000.

Nb Sub Laxman Krishna More (JC-458341K), 13th May 2000.*

*(Granted dry seniority in the rank of Sub with effect from 1st May 2000).

Nb Sub Nikam Chandrakant Anandrao (JC-458328A), 1st May 2000.

Nb Sub Thorve Manohar Haribhau (JC-458359A), 1st May 2000.

Nb Sub Rohtas Singh (JC-458187W), 1st May 2000.

Nb Sub Aminso Hamdeo Mulla (JC-458255Y), 1st May 2000.

Nb Sub Patil Ganpat Dhonbha (JC-458362A), 1st May 2000.

Nb Sub Syed Umar (JC-458348N), 1st May 2000.

Nb Sub Ramchandra Nivruti Shinde (JC-458337F), 1st May 2000.

Nb Sub Ram Shetty (JC-458432N), 1st May 2000.

Nb Sub Joadale Arun Baba (JC-488450L), 1st May 2000.

Nb Sub Manikao Deviam Murade (JC-458378L), 1st May 2000.

Nb Sub Bhaskar Nimbaji Padghan (JC-458383W), 1st May 2000.

Nb Sub Ganpat Arjun Kadim (JC-458284N), 1st May 2000.

Nb Sub Shute Sudhakar Somnabhi (JC-458346H), 1st May 2000.

Nb Sub Krishna Shivram Rawal (JC-458397W), 1st Aug 2000.*

*(Granted dry seniority in the rank of Sub with effect from 1st May 2000).

Nb Sub Datekar Prakash Bithojirao (JC-458355K), 1st May 2000.

Nb Sub MD Muneem Pasha (JC-458356M), 1st May 2000.

Nb Sub Avinash Pandurang Bhosle (JC-458367Y), 1st May 2000.

Nb Sub Hariba Shivaji Shinde (JC-458438P), 1st May 2000.

Nb Sub Sawant Raghunath Ramchandra (JC-458468M), 1st May 2000.

Nb Sub Abasaheb Shivaji Patil (JC-458276P), 1st May 2000.

Nb Sub Bhandare Vikas Digambar (JC-458350L), 1st May 2000.

Nb Sub Shinde Suresh Shivramrao (JC-458357P), 1st May 2000.

Nb Sub Sawant Vishnu Narayan (JC-458369K), 1st May 2000.

Nb Sub Appalch Shankar (JC-458451V), 1st May 2000.

Nb Sub Mane Shivram Motiram (JC-458395L), 1st May 2000.

Nb Sub Sakharan Shankar Chalke (JC-458396N), 1st May 2000.

Nb Sub Gaidhani Ravindra Rupchand (JC-458503K), 1st May 2000.

Nb Sub Chanaveerappa (JC-458363H), 1st May 2000.

Nb Sub RM Veeraiyah (JC-458328Y), 1st May 2000.

Nb Sub Mulik Ankush Krishna (JC-458400L), 22nd May 2000.*

*(Granted dry seniority in the rank of Sub with effect from 1st May 2000).

Nb Sub Dalve Vishnu Tukaram (JC-458411X), 1st May 2000.

Nb Sub Parmeshwar Balbeem Kashed (JC-458400Y), 10th June 2000.*

*(Granted dry seniority in the rank of Sub with effect from 1st May 2000).

Nb Sub Waman Killekar (JC-458270N), 20th June 2000.*

Nb Sub Pandurang Yallappa Desurkar (JC-458380H), 31st July 2000.*

*(Granted dry seniority in the rank of Sub with effect from 1st May 2000).

Nb Sub Jadhav Harischandra Piraji (JC-458462L), 23rd May 2000.*

*(Granted dry seniority in the rank of Sub with effect from 1st May 2000).

Nb Sub Waman Killekar (JC-458270N), 20th June 2000.*

*(Granted dry seniority in the rank of Sub with effect from 10th May 2000).

Nb Sub Vasant Nagoji Patil (JC-458304W), 25th May 2000.

*(Granted dry seniority in the rank of Sub with effect from 10th May 2000).

Nb Sub Atmaram Shantaram Kadam (JC-458412A), 27th Aug 2000.*

*(Granted dry seniority in the rank of Sub with effect from 14th May 2000).

Nb Sub Phadtare Shankar Yeswant (JC-458277X), 18th July 2000.*

*(Granted dry seniority in the rank of Sub with effect from 4th June 2000).

Nb Sub Kadam Vilas Pandurang (JC-458245P), 15th Aug 2000.*

*(Granted dry seniority in the rank of Sub with effect from 1st Aug 2000).

Nb Sub Nilakanth Naik (JC-458372K), 4th Aug 2000.*

*(Granted dry seniority in the rank of Sub with effect from 1st Aug 2000).

Nb Sub Shankar Anna Salunke (JC-458460A), 4th Sep 2000.*

*(Granted dry seniority in the rank of Sub with effect from 1st Aug 2000).

To be Sub Clk

Nb Sub Clk T Pratap Singh (JC-458116P), 1st May 2000.

Nb Sub Clk Kokare Dhulappa Nivarti (JC-458115M), 1st May 2000.

Nb Sub Clk Nemane Trimbak Rambhav (JC-458185L), 1st May 2000.

Nb Sub Clk Humbe Bajirao Namdeo (JC-458186N), 1st May 2000.

THE MADRAS REGIMENT

To be Sub

Nb Sub Suresh Mallappa Kammar (JC-468106Y), 1st Jan 2000.

Nb Sub Balarama Moorthy P (JC-548203K), 1st Jan 2000.

Nb Sub P Ambrose (JC-548232Y), 1st Jan 2000.

Nb Sub Valsarajan KK (JC-468361L), 1st Jan 2000.

Nb Sub Raveendran M (JC-438243M), 1st Aug 2000.

Nb Sub Manoharan M (JC-438207X), 1st Jan 2000.

Nb Sub Ambujakshan TC (JC-438209H), 1st Jan 2000.

Nb Sub Balakrishnan CV (JC-438210X), 13th Feb 2000.

Nb Sub Moidootty VM (JC-438225A), 20th Mar 2000.

IAK LI

To be Substantive Subedar (Clerk)

Nb Sub (Clk) Suram Chand (JC-592291L), 03 Aug 2000.

To be Substantive Subedar (Musn)

Nb Sub (Musn) Hutman Gurung (JC-592167K), 01 Oct 96.

THE RAJ RIF

To be Subs Sub

Nb Sub Prem Kumar Chauhan, Vrc (JC-226184L), 15th Mar 1999.

Nb Sub Dan Singh (JC-201877X), 1st May 1999.

Nb Sub Bhanwar Singh (JC-212571P), 1st Jun 1999.

Nb Sub Mal Singh (JC-220166M), 1st Jun 1999.

Nb Sub Om Prakash Singh (JC-468018H), 1st Aug 1999.

Nb Sub Madan Singh (JC-468072W), 1st Aug 1999.

Nb Sub Om Singh Shekhawat (JC 468163A), 1st Oct 1999.

Nb Sub Ram Singh Rarh (JC-468071N), 7th Dec 1999.

Nb Sub Rohitashva Singh (JC-468082A), 7th Dec 1999.

Nb Sub Rugha Ram Bagria (JC-468094P), 7th Dec 1999.

Nb Sub Malam Singh (JC-468164H), 7th Dec 1999.

Nb Sub Chitar Singh (JC-648171Y), 7th Dec 1999.

3 GR

To be Subedar (Clerk)

Nb Sub (Clk) Garga Bahadur Subba (JC-607156X), 01 Aug 2000.

Nb Sub (Clk) Rama Kumar NS (JC-607168M), 01 Aug 2000.

Nb Sub (Clk) Durga Bahadur Chhetri (JC-607178W), 01 Nov 2000.

Nb Sub (Clk) Tapan Kumar Som (JC-607187X), 01 Dec 2000.

To be Subedar Major (Clerk)

Sub (Clk) Madan Singh (JC-205377X), 01 Nov 2000.

To be Subedar Major

Sub Dib Bahadur Thapa (JC-172058H), 01 Sep 2000.

THE SIKH LI

To be Sub (Clk) (GD)

Nb Sub (Clk) Balbir Singh (JC-508323A), 01 Sep 2000.
Nb Sub (Clk) Roop Singh (JC-508331Y), 01 Oct 2000.
Nb Sub (Clk) Rajender Singh Gorayan (JC-508344W), 01 Oct 2000.
Nb Sub (Clk) Ram Pal Rana (JC-508345Y), 02 Nov 2000.

To be Sub (GD)

Nb Sub Raghbir Singh (JC-508298M), 22 Dec 1999.
Nb Sub Surjit Singh (JC-508260H), 22 Dec 1999.
Nb Sub Amarjit Singh (JC-508268P), 22 Dec 1999.
Nb Sub Raminder Singh (JC-508127A), 01 Jan 2000.

To be Sub (Clk) (GD)

Nb Sub (Clk) Balwinder Singh (JC-508378K), 01 Aug 2000.
Nb Sub (Clk) Buta Singh (JC-508413F), 01 Sep 2000.
Nb Sub (Clk) Baldev Singh (JC-508414K), 01 Sep 2000.

The Dogra Regiment

To be Sub

Nb Sub Ramesh Chand (JC-519030P), 1st Jun 2000.
Nb Sub Rattan Lal (JC-518904L), 25th June 2000.

To be Sub Maj

Sub Rtp Lal Verma (JC-192446F), 1st Feb 2000.
Sub Deepak Kumar Chauhan (JC-518032N), 1st Aug 2000.

To be Sub

Nb Sub Ram Lal (JC-518335H), 22nd Dec 1999.
Nb Sub Des Raj Dhiman (JC-518384L), 22nd Dec 1999.
Nb Sub Baldev Raj Prashar (JC-518358K), 22nd Dec 1999.
Nb Sub Raghbir Singh (JC-518633Y), 1st Jan 2000.
Nb Sub Desh Raj Lagwal (JC-518634F), 3rd July 2000.
Nb Sub Manohar Singh (JC-518671P), 9th July 2000.
Nb Sub Kishori Lal (JC-518683K), 1st Sep 2000.

To be Sub Clk

Nb Sub Clk Kamlesh Chand (JC-518543X), 1st June 2000.
Nb Sub Clk Suresh Kumar Thakur (JC-518567F), 1st Sep 2000.

The Kumaon Regiment

To be Subedar Major

Sub Brahma Nand Yadav (JC-219740N), 02 Aug 2000.
Sub Ranjit Singh Yadwa (JC-193003M), 29 Jul 2000.
Sub Laxman Singh (JC-178034F), 01 Aug 2000.
Sub Gopal Singh Gariya (JC-159032P), 01 Aug 2000.
Sub Madan Mohan Singh (JC-183053K), 01 Sep 2000.
Sub Narendra Singh (JC-201108N), 09 Oct 2000.
Sub Trilok Singh (JC-183054M), 01 Oct 2000.

To be Subedar

Nb Sub Pratap Singh Nagarkoti (JC-538100X), 23 Mar 2000.
Nb Sub Trilok Singh (JC-538130P), 23 Mar 2000.
Nb Sub Swaroop Singh (JC-538146X), 23 Mar 2000.
Nb Sub Kharak Singh (JC-538248X), 07 Aug 2000.
Nb Sub Hira Singh (JC-538249Y), 09 Sep 2000.
Nb Sub Dharam Vir (JC-538458W), 09 Dec 1999.
Nb Sub Fateh Singh (JC-538459Y), 09 Dec 1999.
Nb Sub Sarjeet Singh (JC-538663X), 05 Apr 2000.
Nb Sub Puran Singh (JC-538471A), 24 Oct 2000.

The Naga Regiment

Nb Sub Balbir Singh (JC-590052X), 19 Mar 2000.
Nb Sub M Aliba (JC-590022A), 26 Feb 2000.
Nb Sub P Ashuli Mao (JC-590026W), 01 Apr 2000.
Nb Sub Y Chembise (JC-590037H), 01 Apr 2000.

To be Subedar

Nb Sub Pratap Singh (JC-538674K), 28 Jul 2000.
Nb Sub Pushkar Chandra (JC-538690F), 01 Aug 2000.
Nb Sub Amar Singh (JC-538211P), 01 May 2000.
Nb Sub Bishnu Singh (JC-538304K), 01 Aug 2000.
Nb Sub Pushkar Singh (JC-538306P), 14 Aug 2000.
Nb Sub Thakur Singh Parihar (JC-538323P), 14 Aug 2000.
Nb Sub Manohar Singh (JC-538324X), 19 Sep 2000.
Nb Sub Mohan Singh (JC-538327L), 02 Oct 2000.
Nb Sub Dhan Singh Parihar (JC-538180A), 01 Aug 2000.
Nb Sub Basant Ram (JC-538299K), 01 Aug 2000.
Nb Sub Kushal Singh (JC-538351F), 31 Aug 2000.
Nb Sub Govind Singh, SM (JC-538738K), 25 Sep 2000.
Nb Sub Raghubir Singh (JC-538556W), 01 Sep 99.
Nb Sub Bhim Singh Rajwar (JC-538665K), 25 Mar 2000.
Nb Sub Kailash Chander (JC-538666L), 16 May 2000.
Nb Sub Prakash Ram Arya (JC-538702L), 16 May 2000.
Nb Sub Harak Singh (JC-538383K), 10 Jul 2000.

The Naga Regiment

Nb Sub LH Coloveson Anal (JC-590024L), 06 Apr 2000.
Nb Sub Narayan Datt (JC-590033M), 01 Feb 2000.
Nb Sub Pokhar Singh (JC-590034P), 01 Feb 2000.
Nb Sub Khem Singh (JC-590035X), 08 Mar 2000.
Nb Sub Chandravir Rana (JC-590038L), 27 May 2000.
Nb Sub Hayat Singh (JC-590042N), 08 May 2000.

THE PARACHUTE REGIMENT

TO BE SUBEDAR MAJOR

Sub Patil Mohan Pandurang (JC-180832F), 01 Jul 2000.
Sub Rati Ram (JC-194508P), 01 Sep 2000.
Sub Tej Karan (JC-205043H), 01 Oct 2000.
Sub Mohan Chand (JC-205048F), 01 Oct 2000.
Sub Roshan Lal (JC-184267M), 01 Nov 2000.

TO BE SUBEDAR

Nb Sub Kamleshwar Prasad (JC-412117Y), 01 May 99.
 Nb Sub Arjun Ningappa Ashtekar (JC-412270P), 01 Jan 2000.
 Nb Sub Sant Ram (JC-412164W), 04 Feb 2000.
 Nb Sub Tarlok Singh (JC-412058X), 01 Apr 2000.
 Nb Sub Jawahar Singh (JC-412356N), 01 May 2000.
 Nb Sub Pyare Lal (JC-412056M), 01 Jun 2000.
 Nb Sub Ram Mehar Singh (JC-412057P), 01 Jun 2000.
 Nb Sub Hira Singh Mehta (JC-412201Y), 01 Jun 2000.
 Nb Sub Gobind Singh (JC-412202F), 01 Jul 2000.
 Nb Sub Ram Phal (JC-412346K), 03 Jul 2000.
 Nb Sub Satish Kumar Thapa (JC-412333M), 01 Aug 2000.
 Nb Sub Hira Singh Rana (JC-412369M), 01 Aug 2000.
 Nb Sub Onkar Chand Rana (JC-412407W), 01 Oct 2000.
 Nb Sub Joginder Singh (JC-412364M), 01 Nov 2000.
 Nb Sub Joga Singh (JC-412408Y), 01 Nov 2000.

11 GR

TO BE SUBEDAR

Nb Sub Ash Bahadur Rai (JC-634138Y), 07 Dec 99.
 Nb Sub Shiwa Kumar Rai (JC-634133A), 07 Dec 99.
 Nb Sub Prem Bahadur Limbu (JC-634134H), 07 Dec 99.
 Nb Sub Lal Bahadur Ghale (JC-634132X), 07 Dec 99.
 Nb Sub Suren Kumar Rai (JC-634143X), 07 Dec 99.
 Nb Sub Kishor Singh Rai (JC-634154W), 07 Dec 99.
 Nb Sub Madhim Bahadur Rai (JC-634155Y), 07 Dec 99.
 Nb Sub Man Dhoi Subba (JC-634165H), 07 Dec 99.
 Nb Sub Manj Rai (JC-634166I), 07 Dec 99.
 Nb Sub Arun Kumar Rai (JC-634167N), 07 Dec 99.
 Nb Sub Bishnu Kumar Subba (JC-634199W), 07 Dec 99.
 Nb Sub Anil Kumar Rai (JC-634200A), 07 Dec 99.
 Nb Sub Kendra Bahadur Limbu (JC-634201H), 07 Dec 99.
 Nb Sub Harka Bir Rai (JC-634202L), 07 Dec 99.
 Nb Sub Teju Ram Pradhan (JC-634205Y), 07 Dec 99.
 Nb Sub Chakra Bahadur Gurung (JC-634206F), 01 Jan 2000.
 Nb Sub Prasad Man Rai (JC-634218W), 01 Jan 2000.
 Nb Sub Netra Prasad Ningleku (JC-634223F), 01 Jan 2000.
 Nb Sub Sisupal Limbu (JC-634225M), 01 Jan 2000.
 Nb Sub Purna Bahadur Tamang (JC-634227X), 01 Jan 2000.
 Nb Sub Shamsher Singh (JC-634228A), 01 Jan 2000.
 Nb Sub Nar Bahadur Limbu (JC-634237F), 01 Jan 2000.
 Nb Sub Dhurba Kumar Rai (JC-634242M), 01 Jan 2000.
 Nb Sub Man Bahadur Limbu (JC-634243P), 01 Jan 2000.
 Nb Sub Dil Bahadur Gurung (JC-634244X), 01 Apr 2000.
 Nb Sub Ran Bahadur Rai (JC-634245A), 08 May 2000.
 Nb Sub Kazi Man Limbu (JC-634248N), 01 Jul 2000.

To be Sub Major

Sub/Clk Durga Prasad Subba (JC-216948L), 01 Aug 2000.
 Sub Padam Bahadur Pradhan (JC-162341H), 01 Sep 2000.

To be Subedar

Nb Sub (Clk) Dawa Dorjay Tamang (JC-634103H), 07 Dec 99.
 Nb Sub (Clk) Sarbajit Rai (JC-634114P), 07 Dec 99.
 Nb Sub (Clk) Vijayan Pillai K (JC-634115X), 01 Aug 2000.
 Nb Sub Anil Kumar Subba (JC-634083H), 01 Oct 2000.
 V. P. VARGHESE
 Under Secy.

No. 92, dated 24th January 2001.—The President is pleased to make the following promotion.

REGULAR ARMY

PIONEER CORPS

To be Substantive Sub Maj (GD)

Sub (GD) Rustam Ali (JC-188787P), 01 Oct 2000

To be Nb Sub (Clk/GD)

Hav (GD) Budho Ram (802828P now JC-829233L), 06 Nov 2000.*

Hav Clk (GD) Baldev Chand Rana (8032043A now JC-829234N), 23 Nov 2000.@

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub (GD) wef 01 Oct 2000 without effect on pay and allowances).

@(Granted seniority in the rank of Nb Sub (GD) wef 01 Nov 2000 without effect on pay and allowances).

To be Nb Sub (GD)

Hav (GD) Surinder Prasad Singh (8025695W now JC-829227X), 30th Jul 2000.*

Hav (GD) Laxman Lal Manglaji Modia (8024940P now JC-829229H), 18th Sep 2000.@

Hav (GD) Mahmud Mirj Ahmed (8025770P now JC-829228A), 15th Jul 2000.&

Hav (DG) Vijai Singh (8025884A now JC-829232H), 28th Oct 2000.&

Hav (GD) Dan Singh (8025595L now JC-829230X), 14th Oct 2000.%

Hav (GD) Abdlhesh Singh (8025920A now JC-829231A), 06th Sep 2000.%

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub (GD) wef 01 Apr 2000 without effect on pay and allowances).

@(Granted seniority in the rank of Nb Sub (GD) wef 01 Jun 2000 without effect on pay and allowances).

&(Granted seniority in the rank of Nb Sub (GD) wef 01 Jul 2000 without effect on pay and allowances).

.&(Granted seniority in the rank of Nb Sub (GD) wef 01 Aug 2000 without effect on pay and allowances).

%(Granted seniority in the rank of Nb Sub (GD) wef 01 Sep 2000 without effect on pay and allowances).

CORPS OF AD ARTILLERY

To be Substantive Subedar (GD)

Nb Sub Mahendra Nath Naik (JC-296555A), 30th Sep 2000/10th Jan 2000.*

Nb Sub Jagbir Singh (JC-296614F), 12th Jun 2000/01st Jun 2000.*

Nb Sub Shri Ram Verma (JC-296752H), 27th Jun 2000/01st Jun 2000.*

Nb Sub Satyabhan Singh (JC-297094N), 05th Jul 2000/01st Jun 2000.*

Nb Sub Om Chand (JC-296393A), 01st Oct 2000/20th Jun 2000.*

Nb Sub Mahender Singh (JC-297051Y), 17th Sep 2000/20th Jun 2000.*

Nb Sub A Gladwyn Gokila Doss (JC-296228P), 16th Nov 2000/30th Jun 2000.*

Nb Sub Dev Raj (JC-226470M), 12th Aug 2000/01st Aug 2000.*

Nb Sub Sukhpal Singh (JC-255920F), 09th Sep 2000/01st Aug 2000.*

Nb Sub Kharag Singh (JC-256785L), 14th Aug 2000/01st Aug 2000.*

Nb Sub Lakkan Singh (JC-296128K), 23rd Sep 2000/01st Aug 2000.*

Nb Sub Vithal Takkekari (JC-296223W), 29th Sep 2000/01st Aug 2000.*

Nb Sub Darshan Singh (JC-296418F), 29th Aug 2000/01st Aug 2000.*

Nb Sub Jagdish Chander Yadav (JC-296434Y), 23rd Sep 2000/01st Aug 2000.*

Nb Sub Krishna Bahadur Thapa (JC-296579K), 30th Sep 2000/01st Aug 2000.*

Nb Sub Daroga Singh (JC-296686L), 01st Aug 2000.

Nb Sub G Muni (JC-296726F), 22nd Sep 2000/01st Aug 2000.*

Nb Sub Partap Singh (JC-296917W), 02nd Sep 2000/01st Aug 2000.*

Nb Sub MD Zakir Husain (JC-297146Y), 03rd Oct 2000/01st Aug 2000.*

Nb Sub Prem Nath Mishra (JC-296282H), 20th Nov 2000/05th Aug 2000.*

Nb Sub Dharam Bhir (JC-297014L), 26th Sep 2000/21st Aug 2000.*

Nb Sub Madan Singh (JC-256342K), 11th Sep 2000/01st Sep 2000.*

Nb Sub Shish Ram (JC-296301H), 02nd Sep 2000/01st Sep 2000.*

Nb Sub Pharendra Bahadur Chhetri (JC-256353W), 11th Sep 2000/01st Sep 2000.*

Nb Sub Surender Singh (JC-296072H), 09th Sep 2000/01st Sep 2000.*

Nb Sub Ranjit Singh (JC-296260K), 24th Sep 2000/01st Sep 2000.*

Nb Sub Dharmmanandan (JC-296373M), 08th Sep 2000/01st Sep 2000.*

Nb Sub Man Singh Yadav (JC-296481W), 30th Sep 2000/01st Sep 2000.*

Nb Sub Surinderpal Singh (JC-296857M), 01st Oct 2000/01st Sep 2000.*

Nb Sub Ghanishyam Sudan (JC-296680K), 14th Sep 2000/01st Sep 2000.*

Nb Sub Kanhua Singh (JC-296636A), 18th Sep 2000/01st Sep 2000.*

Nb Sub Ram Swamy (JC-296710W), 19th Nov 2000/01st Sep 2000.*

Nb Sub Laxmi Narain (JC-296865L), 09th Sep 2000/01st Sep 2000.*

Nb Sub Jarnail Singh (JC-297130N), 17th Sep 2000/01st Sep 2000.*

Nb Sub Dilbagh Singh (JC-297193W), 15th Sep 2000/01st Sep 2000.*

Nb Sub Parimal Chowdhury (JC-297175N), 29th Sep 2000/01st Sep 2000.*

Nb Sub Maluk Singh (JC-296725Y), 16th Nov 2000/22nd Sep 2000.*

Nb Sub Damar Bahadur Pun (JC-296134X), 14th Oct 2000/01st Oct 2000.*

Nb Sub Mohinder Singh (JC-296244M), 15th Nov 2000/01st Oct 2000.*

Nb Sub Umesh Chandra (JC-296372K), 01st Oct 2000.*

Nb Sub Kulwani Singh (JC-296375X), 18th Oct 2000/01st Oct 2000.*

Nb Sub Mukundan PS (JC-296448Y), 19th Nov 2000/01st Oct 2000.*

Nb Sub Raghbir Singh (JC-296401N), 01st Oct 2000.

Nb Sub Jay Kanta Borah (JC-296986M), 20th Nov 2000/01st Oct 2000.*

Nb Sub Karam Chand (JC-297049F), 01st Oct 2000.

Nb Sub Mahendra Kumar Swami (JC-297248P), 20th Nov 2000/13th Oct 2000.*

Nb Sub Syam Prasad Behara (JC-296307K), 01st Nov 2000.

Nb Sub Virender Singh (JC-296486P), 19th Nov 2000/01st Nov 2000.*

Nb Sub Hole Shivaji Devraj (JC-296514W), 17th Nov 2000/01st Nov 2000.*

Nb Sub Jwala Sharma (JC-296760F), 06th Nov 2000/01st Nov 2000.*

Nb Sub Surender Singh Raghaw (JC-297054M), 01st Nov 2000.

Nb Sub Ishwar Singh Yadava (JC-297158N), 01st Nov 2000.

*(Gtd ante-date seniority wef).

R. CHATURVEDI, Under Secy.

No. 93, dated 22nd January, 2001.—The President is pleased to make the following promotion :—

TERRITORIAL ARMY

TERRITORIAL COMMISSION

Capt to Major

AS Tapadar (TA-41865), Engrs, 04 Jul 2000.

B. N. SINGH, Under Secy.

No. 94, dated 25th January, 2001.—The President is pleased to make the following promotion under AI 15/79 as amended :—

REGULAR ARMY

ARMY DENTAL CORPS

(SHORT SERVICE COMMISSION)

Capt to be Quasi-Substantive Maj

Surender Sharma (DS-11890L), 24th July 2000.

The President is pleased to make the following promotion under AI 37/78 as amended :—

PERMANENT COMMISSION

Lt to be Capt

Goml Nakra (DR-10499F), 23th Aug 2000.

R. K. SETHI, Brlg, Dy DGDS

No. 95, dated 25th January, 2001.—The President is pleased to make the following promotions :—

REGULAR ARMY

PERMANENT COMMISSION

Cols to be Brigs

AS Kasthari (MR-2451), AMC/PC, 24-09-99 (Notional seniority without any effect on his pay and pension from 01-02-98).

M Alara (MR-2043), AMC/PC, 28-08-99 (Notional seniority without any effect on his pay and pension from 23-08-99).

Ramji Rai (MR-2064), AMC/PC, 28-04-2000 (Notional seniority without any effect on his pay and pension from 28-04-2000).

Ashok Kumar (MR-2059), AMC/PC, 01-05-2000 (Notional seniority without any effect on his pay and pension from 01-05-2000).

B Sadananda (MR-2051), AMC/PC, 29-06-2000 (Notional seniority without any effect on his pay and pension from 24-05-2000).

ML Chawla (MR-2068), AMC/PC, 02-06-2000 (Notional seniority without any effect on his pay and pension from 01-06-2000).

YV Suri, VSM (MR-2686), AMC/PC, 01-06-2000 (Notional seniority without any effect on his pay and pension from 01-06-2000).

KS Murty (MR-2747), AMC/PC, 22-06-2000 (Notional seniority without any effect on his pay and pension from 01-06-2000).

AK Bakshi (MR-2745), AMC/PC, 12-06-2000 (Notional seniority without any effect on his pay and pension from 01-06-2000).

(Mrs) Anju Manchanda, VSM (MR-4353), AMC/PC, 01-06-2000 (Notional seniority without any effect on her pay and pension from 01-06-2000).

AB Pradhan (MR-2920), AMC/PC, 02-06-2000 (Notional seniority without any effect on his pay and pension from 01-06-2000).

BN Borgohain (MR-2862), AMC/PC, 10-08-2000 (Notional seniority without any effect on his pay and pension from 01-06-2000).

DP Asthana (MR-3603), AMC/PC, 01-06-2000 (Notional seniority without any effect on his pay and pension from 01-06-2000).

GC Boruah (MR-4602), AMC/PC, 01-06-2000 (Notional seniority without any effect on his pay and pension from 01-06-2000).

CG Balarangalah (MR-2192), AMC/PC, 02-06-2000 (Notional seniority without any effect on his pay and pension from 01-06-2000).

PVS Rana (MR-2966), AMC/PC, 30-06-2000 (Notional seniority without any effect on his pay and pension from 01-06-2000).

ML Verma (MR-2823), AMC/PC, 03-06-2000 (Notional seniority without any effect on his pay and pension from 01-06-2000).

RK Ray (MR-2807), AMC/PC, 01-06-2000 (Notional seniority without any effect on his pay and pension from 01-06-2000).

(Mrs) P Arora (MR-2249), AMC/PC, 01-06-2000 (Notional seniority without any effect on her pay and pension from 01-06-2000).

MPV Jaiprakash (MR-2250), AMC/PC, 01-06-2000 (Notional seniority without any effect on his pay and pension from 01-06-2000).

CM Ashraf (MR-2240), AMC/PC, 01-06-2000 (Notional seniority without any effect on his pay and pension from 01-06-2000).

Lt Col to be Cols

P Manoharan (MR-3896X), AMC/PC, 02-06-2000 (Notional seniority without any effect on his pay and pension from 01-05-99).

PC Sharma (MR-4469N), AMC/PC, 01-06-2000 (Notional seniority without any effect on his pay and pension from 01-03-2000).

R Sehgal (MR-3302X), AMC/PC, 15-04-2000 (Notional seniority without any effect on his pay and pension from 01-03-2000).

SC Mohanty (MR-4684), AMC/PC, 29-06-2000 (Notional seniority without any effect on his pay and pension from 30-01-98).

MS Gujral (MR-4461), AMC/PC, 14-06-99 (Notional seniority without any effect on his pay and pension from 01-02-98).

BB Mohanty (MR-4612), AMC/PC, 12-07-99 (Notional seniority without any effect on his pay and pension from 04-02-98).

PN Singh (MR-3492), AMC/PC, 28-06-99 (Notional seniority without any effect on his pay and pension from 06-02-98).

P Sagar (MR-3620), AMC/PC, 17-07-99 (Notional seniority without any effect on his pay and pension from 08-02-98).

VM Mathur (MR-3947), AMC/PC, 26-06-99 (Notional seniority without any effect on his pay and pension from 11-02-98).

SC Gupta (MR-3622), AMC/PC, 09-07-99 (Notional seniority without any effect on his pay and pension from 11-02-98).

(Ms) RP Singh (MR-4112), AMC/PC, 29-05-99 (Notional seniority without any effect on her pay and pension from 11-02-98).

SC Mohanty (MR-3724), AMC/PC, 20-08-99 (Notional seniority without any effect on his pay and pension from 11-02-98).

RC Behera (MR-3818), AMC/PC, 25-05-99 (Notional seniority without any effect on his pay and pension from 01-03-98).

HS Gill (MR-4464), AMC/PC, 10-08-99 (Notional seniority without any effect on his pay and pension from 01-06-98).

S Chaudhuri (MR-4616L), AMC/PC, 26-07-99 (Notional seniority without any effect on his pay and pension from 17-06-98).

KS Pathy (MR-3767), AMC/PC, 10-08-99 (Notional seniority without any effect on his pay and pension from 21-07-98).

T Prabhakar (MR-3819), AMC/PC, 10-07-99 (Notional seniority without any effect on his pay and pension from 26-09-98).

RS Chauhan (MR-4356), AMC/PC, 16-08-99 (Notional seniority without any effect on his pay and pension from 08-10-98).

TP Madhusudan (MR-3042), AMC/PC, 07-06-99 (Notional seniority without any effect on his pay and pension from 13-11-98).

MNG Nair (MR-3034), AMC/PC, 24-05-99 (Notional seniority without any effect on his pay and pension from 01-12-98).

PJ Vincent (MR-3047), AMC/PC, 27-05-99 (Notional seniority without any effect on his pay and pension from 09-12-98).

M Singh (MR-3029), AMC/PC, 27-08-99 (Notional Seniority without any effect on his pay and pension from 10-12-98)

S Sudarsanan (MR-3023), AMC/PC, 29-05-99 (Notional seniority without any effect on his pay and pension from 22-12-98).

H Singh (MR-3025), AMC/PC, 27-05-99 (Notional seniority without any effect on his pay and pension from 29-12-98).

A Singh (MR-3024), AMC/PC, 10-07-99 (Notional seniority without any effect on his pay and pension from 01-03-99).

T Rajaram (MR-3041), AMC/PC, 27-05-99 (Notional seniority without any effect on his pay and pension from 01-03-99).

TV Tomy (MR-3652), AMC/PC, 14-08-99 (Notional seniority without any effect on his pay and pension from 22-03-99).

HL Kakria (MR-3434), AMC/PC, 15-06-99, (Notional seniority without any effect on his pay and pension from 22-03-99).

T Smanla (MR-3653), AMC/PC, 30-06-2000 (Notional seniority without any effect on his pay and pension from 05-04-99).

SR Bennur (MR-3746), AMC/PC, 08-05-2000 (Notional seniority without any effect on his pay and pension from 12-04-99).

M Adya (MR-3562), AMC/PC, 28-06-99 (Notional seniority without any effect on his pay and pension from 12-04-99).

BS Rathore (MR-3435), AMC/PC, 30-06-99 (Notional seniority without any effect on his pay and pension from 12-04-99).

C Singh (MR-3436), AMC/PC, 30-06-99 (Notional seniority without any effect on his pay and pension from 15-04-99).

AS Bath (MR-3440), AMC/PC, 02-07-99 (Notional seniority without any effect on his pay and pension from 17-04-99).

KP Anand (MR-3495) AMC/PC 03-07-99 (Notional seniority without any effect on his pay and pension from 17-04-99).

Z. Singh (MR-3658), AMC/PC, 29-06-99 (Notional seniority without any effect on his pay and pension from 29-04-99).

VK Kotte (MR-3748), AMC/PC, 25-08-99 (Notional seniority without any effect on his pay and pension from 01-05-99).

GS Guglani (MR-3822), AMC/PC, 04-06-2000 (Notional seniority without any effect on his pay and pension from 01-05-99).

SK Virmani (MR-3563), AMC/PC, 20-07-99 (Notional seniority without any effect on his pay and pension from 01-05-99).

KK Gupta (MR-3749), AMC/PC, 17-06-2000 (Notional seniority without any effect on his pay and pension from 01-05-99).

TK Dev (MR-3416), AMC/PC, 02-06-2000 (Notional seniority without any effect on his pay and pension from 01-05-99).

GS Mand (MR-3499), AMC/PC, 03-06-2000 (Notional seniority without any effect on his pay and pension from 01-05-99).

K Sahoo (MR-3439), AMC/PC, 03-07-99 (Notional seniority without any effect on his pay and pension from 01-05-99).

UK Vidwans (MR-3179), AMC/PC, 03-10-2000 (Notional seniority without any effect on his pay and pension from 01-05-99).

KS Bhimwal (MR-3178), AMC/PC, 01-06-2000 (Notional seniority without any effect on his pay and pension from 01-05-99).

KM Singh (MR-3189), AMC/PC, 10-07-2000 (Notional seniority without any effect on his pay and pension from 01-05-99).

BB Dogra (MR-3660) AMC/PC 28-06-99 (Notional seniority without any effect on his pay and pension from 01-05-99).

B Pant (MR-3754) AMC/PC 05-06-2000 (Notional seniority without any effect on his pay and pension from 01-05-99).

VR Deshpande (MR-3726) AMC/PC 18-09-99 (Notional seniority without any effect on his pay and pension from 01-05-99).

D Ganguly (MR-3247) AMC/PC 06-09-99 (Notional seniority without any effect on his pay and pension from 01-05-99).

R Mohanchand (MR-3245) AMC/PC 15-10-99 (Notional seniority without any effect on his pay and pension from 01-05-99).

BK Singh (MR-3240) AMC/PC 07-10-99 (Notional seniority without any effect on his pay and pension from 01-05-99).

S Singh (MR-3241) AMC/PC 01-06-2000 (Notional seniority without any effect on his pay and pension from 22-08-99).

AK Bhargava (MR-3228) AMC/PC 12-01-2000 (Notional seniority without any effect on his pay and pension from 22-08-99).

SK Basu (MR-3662) AMC/PC 19-3-00 (Notional seniority without any effect on his pay and pension from 29-08-99).

LS Rathore (MR-3417) AMC/PC 19-7-2000 (Notional seniority without any effect on his pay and pension from 29-08-99).

N Raychaudhuri (MR-3419) AMC/PC 11-02-2000 (Notional seniority without any effect on his pay and pension from 29-08-99).

A Devasenapathi (MR-4690) AMC/PC 1-6-2000 (Notional seniority without any effect on his pay and pension from 01-03-2000).

K Singh (MR-3298) AMC/PC/13-06-2000* (Notional seniority without any effect on his pay and pension from 29-04-2000).

P Krishnamurthi (MR-3290) AMC/PC 1-6-2000 (Notional seniority without any effect on his pay and pension from 29-04-2000).

AK Mukherjee (MR-3567) AMC/PC 4-5-2000 (Notional seniority without any effect on his pay and pension from 29-04-2000)

S. K. PURI
Brigadier
Dy. DGAFMS(P)

AIR BRANCH

No. 96, dated the 24th January 2001.—The President is pleased to make the following substantive promotions —

INDIAN AIR FORCE

FLYING BRANCH

To be substantive Air Marshal

FM Ashana AVSM VM (7672) F(P), 01-08-2000.

USHA NEELAKANDAN
Asst Director of Personnel (Officers)-2(A)

ARMY BRANCH

No. 97, dated the 22nd January 2001.—The President is pleased to retire the undermentioned officer(s) on attaining the age of superannuation including extended period as indicated against each :—

REGULAR ARMY

PERMANENT COMMISSION

Lt Gen SP Datta (MR-1815-N), AMC/PC, 31 May 2000 (A/N).

Lt Gen BB Dutta (MR-2080-F), AMC/PC, 31 May 2000 (A/N).

Lt Gen SC Verma (MR-2482-Y), AMC/PC, 31 May 2000 (A/N).

Brig KS Rao (MR-1873-X), AMC/PC, 31 May 2000 (A/N).

Brig PK Sarkar (MR-2085-A), AMC/PC, 31 May 2000 (A/N).

Brig GC Hazarika (MR-2261-M), AMC/PC, 31 May 2000 (A/N).

Brig AK Hukkoo (MR-2340-F), AMC/PC, 31 May 2000 (A/N).

Maj Gen AVV Rao, (MR-2297) AMC/PC, 31-05-2000 (A/N).

Brig HS Sandhu (MR-1989) AMC/PC, 31-05-2000 (A/N).

Col SK Bhand, (MR-2538) AMC/PC, 31-05-2000 (A/N)

Col RK Roy, (MR-2510) AMC/PC, 31-05-2000 (A/N)

Lt Col DK Ghosh, (MR-3150) AMC/PC, 31-05-2000 (A/N).

The President is pleased to retire the undermentioned officer(s) on attaining the age of superannuation as indicated against each :—

REGULAR ARMY

PERMANENT COMMISSION

Lt Gen R Jayaswal, (MR-1515M) AMC/PC, 31-08-2000 (A/N).

Brig RP Aggarwal, (MR-2365N) AMC/PC, 31-08-2000 (A/N).

Col CS Rawat, (MR-2231P), AMC/PC, 31-08-2000 (A/N).

Brig BC Ray (MR-2339M) AMC/PC, 30-06-2000 (A/N).

Brig CRD Bhate (MR-1928W), AMC/PC, 31-05-2000 (A/N).

Brig HP Yadava (MR-2408X), AMC/PC, 31-07-2000 (A/N)

Brig JS Saini, VSM (MR-2097) AMC/PC, 31-07-2000 (A/N).

Col SC Bhattacharya (MR-2447W) AMC/PC, 31-07-2000 (A/N).

Lt Col SC Vaid (NIR-16320Y) AMC PC, 31-07-2000 (A/N)

Lt Col PK Upadhyaya (MR-3155A) AMC/PC, 31-07-2000 (A/N).

Surg RADM VK Pahwa (75625Z) (MR-01656) Med/PC 31 May 2000 (A/N).

Surg Cdr SD Mishra (75270T) (MR-04443) Med/P 31 May 2000 (A/N).

Maj Gen J R BHARDWAJ
Addl DGAFMS

ARMY BRANCH

CORRIGENDUM

No. 98, dated 23rd January 2001.—In Ministry of Defence Notification No. 36 dated 04 Sep 99 published in Gazette of India serial No. 531 dated 27 Jul 99 under heading 'REGULAR ARMY' sub heading 'Regiment of Artillery'.

Below 'To be Naib Subedar (Clerks GD/SKsT)

For—Hav (Clk) Srinivas (No. 14470531Y now JC 2661898X), 01 Mar 1999

Read—Hav (Clk) Srinivas (No. 14470531Y now JC 261898X), 01 Mar 1999.

For—Hav (Clk) Manohar Prasad Singh No. 14349061 W now JC-2661966A), 01 Apr 1999.

Read—Hav (Clk) Manohar Prasad Singh (No. 14349061 W now JC-261966A), 01 Apr 1999.

For—Hav (Clk) Chandis Bhan (No. 14346149P now JC 2661970H), 01 Apr 1999.

Read—Hav (Clk) Chandra Bhan (No. 14346149P now JC-261970H), 01 Apr 1999.

For—Hav (Clk) Sheo Narain Sahu (No. 14352629X now JC-2661973W), 01 Apr 1999.

Read—Hav (Clk) Sheo Narain Sahu (No. 14352629X now JC-261973W) 01 Apr 1999

R. S. CHOUDHARY
Under Secy